




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 39]
No. 39]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1997 (आश्विन 5, 1919)
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1997 (ASVINA 5 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों
आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers
issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

धल सेवा शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1997

सं. 715, दिनांक 19 अगस्त 1997—राष्ट्रपति मन्त्रोदय
सं. म. सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायक सिविलियन
स्टाफ अधिकारी (ग्रुप-बी राजपत्रित) को सं. म. सिविल
सेवा नियमावली 1968 के नियम 10 (2) के अधीन दिनांक
9-5-1997 अथवा अर्थात् के संवित्कृत होने अथवा नियमित
पदाधारी मिलने में से जो भी पहले हो उस समय तक सिविलियन
स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

- (1) श्री ए चंद्राशेखर
- (2) श्री टी डी धीरयाल
- (3) श्री के. एम. पी. सिंह
- (4) श्री दय्याल पाल
- (5) श्री राजेश सक्सेना
- (6) क. मारी अमीता शरण
- (7) श्री सी एल बतान

(8) श्री अरुण स्वरूप

(9) श्री आर. नटराजन

(10) श्री अनिल कपूर

(11) श्री हेमन्त कुमार

(12) श्री एच एस एस हवेर

ये नियुक्तियां पूर्णतः काम चलाऊ व्यवस्था के हित में की गई
हैं तथा प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदाधारी उपलब्ध
होने पर बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं ।

रण के राजू
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

राष्ट्रपति सहर्ष पदोन्नति करते हैं :—

श्री आर एल से, शाहद रक्षायक (वर्ग 'ब' अराजपत्रित) के
दिनांक 01-08-97 (पत्राहिन) से अगले आदेश तक मशरूफ सेना
मुख्यालय सिविल सेवा में स्थापनापन सहायक सिविलियन स्टाफ

अधीक्षक (वर्ग "ब" राजपत्रित) वर्तमान रूप 2000-60-2300-ब. रॉ.-75-3200-100-3500/- के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ये दो वर्षों की अवधि के लिए परम्बाधीन रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है।

रॉ. 716

रण के राज
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

सं. 716, दिनांक 4 अगस्त 1997—राष्ट्रपति महर्ष पर नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

स्थाई आयोग (विशेष सूची)

जे सी-204373 पी नाथव सबेदार जगदेव सिंह लामे ए डी आर्टी एस एल-4130 की वीरगता जो कि स्थाई आयोग (विशेष सूची) के अंतर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को ले. का पद दिया गया था, जो 1993 के ब्योरा के अंतर्गत 30 अप्रैल, 1994 से बदल कर 12 अप्रैल, 1990 के कलेज के अंतर्गत वीरगता की गई है। उपरोक्त वीरगता के अंतर्गत उन्हें प्रतिपत्नी/प्रभावजा नहीं दिया जाएगा। तदनंतर रक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या 5515/डी (ए जी)/96 दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 में दिया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुसार जे सी-204373 पी नाथव सबेदार जगदेव सिंह लामे ए डी आर्टी एस एल-4130 को जे सी-एन वार्ड 'ए-14287843 नाथव सबेदार सवल कुमार कार., सिगनल एम एल-2018 एल के सीमे और 3068089 सी हवलदार मखदेव भिन चौवान ए डी सी एस एल-3010 एन, 2 ले. के उपर 1989 कौटा की रिक्तियों में शामिल किया जाता है।

जे कि राजपत्र अधिसूचना संख्या 450 दिनांक 02 जून 1995 जो कि 15 जून 1995 को प्रकीर्णित किया गया।

उपरोक्त अधिकारी का नाम राजपत्र अधिसूचना संख्या 1246 दिनांक 22 मई 1990 जो कि 29 सितम्बर 1990 को प्रकीर्णित हुआ, से हटाया जाता है।

रॉ. 717

रॉ. 717

पी एम जेम्स

ले. कर्नल

सहायक सेना सचिव 8 वी

नवी बांध

नीसेना मुख्यालय

सं. 717, दिनांक 20 अगस्त 1997—राष्ट्रपति महर्ष निम्नीलीकृत सहायक (ग्रुप "बी" अराजपत्रित) को उनके नाम के सामने लिखी गई धारोख से आगामी आदेशों तक महस्र

सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थापना आधार पर सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप "बी" राजपत्रित) नियुक्त करते हैं—

(1) श्री के. सी. शर्मा—23-05-97

(2) श्री जी. पी. सिंह—16-06-97

(3) श्री डी. पी. सिंह—01-07-97

(4) श्री जी. एस. राही—01-07-97

(5) श्री नन्द किशोर—01-07-97

रण के राज

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

बाय सेना मुख्यालय

सं. 718, दिनांक 12 अगस्त 1997—राष्ट्रपति महर्ष निम्नीलीकृत सहायकों (ग्रुप बी अराजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में उनके नामों के आगे अंकित निधि में आगले आदेश जारी होने तक स्थापना सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी नियुक्त करते हैं—

(1) श्री करनल सिंह—23-5-97

(2) श्री मनमोहन सिंह—28-5-97

(3) श्री टी आर शर्मा—28-5-97

(4) श्री जगन्नाथ—03-6-97

2. इनकी नियुक्तियों पर सी डब्लू 2/78 के अंतर्गत टी एस 356/85 (एम जी बंसल व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य) में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में 20 नवम्बर 92 के निर्णयों तथा न्यायालयों के विचाराधीन अन्य मामलों के निर्णयों के क्रियान्वयन में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन लागू होंगे। यह नियुक्तियां गेजर प्रसाद व अन्य बनाम भारत सरकार सी एस 521/1994 एवम श्री टी आर किशोरी व अन्य बनाम भारत सरकार जो एस 2550/04 में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के अधीन भी होंगी।

रण के राज

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

धर सेना विभाग

सं. 719, दिनांक 14 अगस्त 1997—राष्ट्रपति निम्नीलीकृत पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

सर्जन रियर एडीमरल री सर्जन आर्बिस एडीमरल

जे. सी. शर्मा (एम. आर. 1480) श्र एम सी/पी सी—27-05-96 (जिन्होंने उनके वेंचन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-97 से)।

मंजर से ले. कर्नल के पब पर

(थल सेना विभाग)

एम भगत (एम आर-04273-ए) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

सं. 720, दिनांक 19 अगस्त 1997—थल सेना अनुदेश 37/78 के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नीलीखत पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक वन्त शिक्षा कौर

(स्थाई कमीशन)

कैप्टन से मंजर रैंक में

ए वी बरुटे (एम आर-04272-एक्स) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

सुवीप राय (डी आर-10444-एक्स)—28-5-97]

आर सी पाववाल (एम आर-04258-एल) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

टी के सीम (एम आर-05351-वाइ) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

यू के शर्मा (एम आर 04262-एन) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

जे. एल. शर्मा

शिरीष्यर

डिप्टी बी जी बी एस

ए एस कश्यप (एम आर-04257-एच) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

सं. 721, दिनांक 27 अगस्त 1997—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आर के एस यादव (एम आर-04275-एल) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

मंजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

एस राजागोपालन (एम आर-04269-एक्स) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

एम एम सिंह (आईसी-33616), आरटी—30 जून 95]

पी के राय (आईसी--33644), सिगनल—30 जून 95]

आर के शर्मा (एम आर-04277-डब्ल्यू) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

पी एस विल्लन (आईसी-33776), इनफैंटरी—30 जून 95]

बी एस विष्ट (एम आर-05354-एम) ए एम सी—22 दिसम्बर 1995]

पी पाल (आईसी-33863), एओसी—30 जून 95]

बी एन सोमन्ना (आई सी-30717) इनफैंटरी—30 जून 95]

आर अरूणाचलम (एम आर-04958-वाइ) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

सी के शिवयन (आईसी-30765), इनफैंटरी—30 जून 95]

आर सूब (एम आर-04256-ए) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

एस एस बरुटे (आईसी-30857), आरटी—30 जून 95]

एस पाहवा (एम आर-04402-एफ) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

एल एस नन्दन (आईसी-30874), इनफैंटरी—30 जून 95]

श्रीमति सी अरूणाचलम (एम आर-04264-वाइ) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

बी सिंह (आईसी-30875), ईएमई—30 जून 95]

के के बोरा (आईसी-30877), इनफैंटरी—30 जून 95]

एन मरवाहा (आईसी-30907), इनफैंटरी—30 जून 95]

एस तिरूमलाई (एम आर-04283-एक्स) ए एम सी—08 दिसम्बर 1995]

एस एम पारूलकर (आईसी-34303), सिगनल—30 जून 95]

एस वी सिंह (एम आर-05824-एम) ए एम सी—20 दिसम्बर 1995]

आर. एस वर्मा (आईसी-30916), आरटी—30 जून 95]

एच एस दिल्लन (आईसी-33682), इनफैंटरी—30 जून 95]

एन. बी. अमरेश

एयर वाइस मार्शल

एच सिंह (आईसी-33683), एएससी—30 जून 95]

जे एस आहलवालिया (आईसी-33684), एसी—30 जून 95]

अतिरिक्त महामित्री

- टी सिंह (आर्डीसी-33685), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 आर सिंह (आर्डीसी-33690), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 बी एस डिल्लन (आर्डीसी-33692), एसी—30 जून 95 ।
 एच ए सिद्धीकी (आर्डीसी-33695), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 ए के पठानियां (आर्डीसी-33696), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 आर्डी डी गोड़ (आर्डीसी-33697), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 एस प्रसाद (आर्डीसी-33702), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 के के चोपड़ा (आर्डीसी-33703), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 एन एन यादव (आर्डीसी-33704), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 जी एस पठानियां (आर्डीसी-33705), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 ए के सिन्हा (आर्डीसी-33709), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 के जयरमण (आर्डीसी-33710), एओसी—30 जून 95 ।
 पी शर्मा (आर्डीसी-33715), इंजीनियर—30 जून 95 ।
 बी पी सिंह (आर्डीसी-33721), सिगनल—30 जून 95 ।
 एस के शर्मा (आर्डीसी-33722), इंएमई—30 जून 95 ।
 एस कुमार (आर्डीसी-33724), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 के सिंह (आर्डीसी-33728), एओसी—30 जून 95 ।
 एम डी एलक्सजंजर (आर्डीसी-33730), इंएमई—30 जून 95 ।
 आर सुरंग (आर्डीसी-33731), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 एम सिंह (आर्डीसी-33732), एओसी—30 जून 95 ।
 ए एस शंवाल (आर्डीसी-33734), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 एस के मंहता (आर्डीसी-33736), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 एस सिंह (आर्डीसी-33741), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 आर पी सिंह (आर्डीसी-33747), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 आर के परमार (आर्डीसी-33749), एएससी—30 जून 95 ।
 डी एस खारा (आर्डीसी-33752), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 ए पी सी डी सूजा (आर्डीसी-33762), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 पी सी मानगन (आर्डीसी-33764), एओसी—30 जून 95 ।
 एम एल कपूर (आर्डीसी-33771), सिगनल—30 जून 95 ।
 सी एन एम नाथर (आर्डीसी-33772), इंजीनियर—30 जून 95 ।
 जे एस जोहर (आर्डीसी-33773), इंएमई—30 जून 95 ।
 पी रामाचन्द्रन (आर्डीसी-33774), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 एम एस बिष्ठ (आर्डीसी-33775), इंजीनियर—30 जून 95 ।
 के एस राना (आर्डीसी-33777), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 टी लाल 6 (आर्डीसी-33780), एएससी—30 जून 95 ।
 आर के वारिअर (आर्डीसी-33787), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 आर आर गडकरे (आर्डीसी-33793), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 आर एस सामबिअल (आर्डीसी-33803), इनफेंटरी—30 जून 95 ।
 एन एम मिनीचा (आर्डीसी-33808), एओसी—30 जून 95 ।
 एच एन कांशल (आर्डीसी-33809), आरटी—30 जून 95 ।
 डी एन यादव (आर्डीसी-33810), आरटी—30 जून 95 ।
 पी सिंह (आर्डीसी-33815), एडीआरटी—30 जून 95 ।
 अमिल पाण्डे
 मंजर
 डी ए एम एस-8ए
- सं. 722, दिनांक 22 अगस्त 97—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की 14 जून, 97 से पदोन्नति करते हैं :—
- नियमित सेवा
 स्थायी कमीशन
 कप्तान से मंजर
- आर्डी सी नम्बर, नाम और आर्म्स
- 43653 एस एम कुमार, मंके इनफेंटरी ।
 43655 के विनांद कुमार, सिगनल ।
 43657 पी डी नाइडू, इंजीनियर्स ।

बाह् सी नम्बर, नाम और भाई

- 43658 हरी सिंह, इजीनियर्स ।
 43659 एस कुमार, ई एम ई ।
 43660 एस गन्वर, एसी ।
 43661 बी आर पिप्ल, ई एम ई ।
 43662 एस मुज, एसी ।
 43663 एन द्विवेदी, मक इनफेंट्री ।
 43664 ए के शोनी, इजीनियर्स ।
 43665 सुहेल सिंह, एसी ।
 43666 बलबीर सिंह, एसी ।
 43667 के एस बरार, एसी ।
 43668 सुनील कुमार, इनफेंट्री ।
 43669 शिवपाल सिंह, इनफेंट्री ।
 43670 अमरजीत सिंह, एसी ।
 43671 आर के चिंकारा, इनफेंट्री ।
 43672 एस एस बर्मा, ए बी सी ।
 43673 गुरुजय सिंह, इनफेंट्री ।
 43674 तेजबीर सिंह, आर्टी ।
 43676 एस आर डांग, इनफेंट्री ।
 43678 एच पी सूद, आर्टी ।
 43679 जी पी एस शिशोर्विद्या, इनफेंट्री ।
 43680 आर कपूर, आर्टी ।
 43681 ए कर्माकर, इनफेंट्री ।
 43682 एके सामानतरे, इनफेंट्री ।
 43683 एन कुमार, आर्टी ।
 43684 जे बी चौधरी, इनफेंट्री ।
 43687 विवेक शर्मा, इनफेंट्री ।
 43688 कल्याण सिंह, इनफेंट्री ।
 43689 पी एस बाजवा, इनफेंट्री ।
 43690 एच एस जोशी, एसी ।
 43691 बी बी बोस, ए एस सी ।
 43692 सुशील राजा, मक इनफेंट्री ।
 43693 रवीन्द्र सिंह, एसी ।
 43694 एस चौधरी, इनफेंट्री ।
 43696 शरणाजीत सिंह, एजीसी ।
 43697 डी बी खत्री, इनफेंट्री ।
 43698 एस सिंह, आर्टी ।
 43699 जी वी सिंह, आर्टी ।
 43701 एम एस शर्मा, आर्टी ।
 43702 पी राहुल, एजी आर्टी ।
 43703 आर के माथूर, आर्टी ।
 43704 एस डी अहमद, आर्टी ।

बाह् सी नम्बर, नाम और भाई

- 43707 एके मजुमदार, आर्टी ।
 43708 पी आर पट्टनयक, इनफेंट्री ।
 43709 बी एस संधू, इजीनियर्स ।
 43710 टी के एच, इनफेंट्री ।
 43711 डी मलहोत्रा, सिग्नल्स ।
 43714 जे एम जार्ज, आर्टी ।
 43715 पी के सिंह, इनफेंट्री ।
 43717 एम शर्मा, इजीनियर्स ।
 43718 डी एस यादव, इनफेंट्री ।
 43720 ए त्रिपाठी, एसी ।
 43722 डी के सिंह, इनफेंट्री ।
 43723 एच के पंत, एएससी ।
 43724 एस के चूग, आर्टी ।
 43725 एम के कट्यार, इनफेंट्री ।
 43726 सामरजीत, इनफेंट्री ।
 43727 बी एस नुंगी, एजीसी ।
 43728 आर बी बिरादर, इजीनियर्स ।
 43729 राजीव सक्सेना, इनफेंट्री ।
 43730 विक्रान्त नायर, एसी ।
 43731 संदीप पांडे, इनफेंट्री ।
 43733 ए ए पॉल, इनफेंट्री ।
 43734 बाह् सहगल, इजीनियर्स ।
 43735 जेसी तलुकदार, आर्टी ।
 43736 डी के नयन, आर्टी ।
 43737 राजीव थापर, इनफेंट्री ।
 43738 एस पारथासारथी, सिग्नल्स ।
 43739 आर श्रीवास्तवा, इनफेंट्री ।
 43740 डी चंडावा, सिग्नल्स ।
 43741 बाह् आर्य, ई एम ई ।
 43743 आर एस राती, इनफेंट्री ।
 43745 गोविन्द सिंह, इनफेंट्री ।
 43746 अवीश कुमार, आर्टी ।
 43747 एस एस बिलसन, एसी ।
 43748 बाह् एस राधू, मक इनफेंट्री ।
 43749 एन एस नट्ट, एएससी ।
 43750 जी पी एस विरक, इनफेंट्री ।
 43751 बी एस आंजला, इनफेंट्री ।
 43754 आर एस यादव, इनफेंट्री ।
 43755 अश्विनिभ सी बी सिंह, इजीनियर्स ।
 43756 एस लॉगह, इनफेंट्री ।
 43757 एन चक्र, आर्टी ।

आर्ह सी नम्बर, नाम और आर्ह

- 43758 एम सी थॉम्स, इनफोर्ट्री ।
 43759 एस बी केसर, मक इनफोर्ट्री ।
 43760 जी सिंह, इजीनियर्स ।
 43761 एस एस सिद्धू, एसी ।
 43762 एन भारती, इनफोर्ट्री ।
 43763 एस पी त्रिपाठी, आर्टी ।
 43765 एन सिंह, इनफोर्ट्री ।
 43766 अशुतोष काले, इनफोर्ट्री ।
 43767 आर श्रीवास्तवा, आर्टी ।
 43768 एन रस्तांगी, इनफोर्ट्री ।
 43769 एस के सहारन, आर्टी ।
 43770 एस भूषण, इनफोर्ट्री ।
 43771 एस मोहन, एडी आर्टी ।
 43772 ओमिन्दर सिंह, इनफोर्ट्री ।
 43774 एम डोसूजा, मक इनफोर्ट्री ।
 43775 पी के माहर, सिग्नल्स ।
 43776 ए के सीहल्ला, इनफोर्ट्री ।
 43777 पी पी डाक, आर्टी ।
 43779 अलोक जैन, आर्टी ।
 43780 डी बिनजी मक इनफोर्ट्री ।
 43782 आर पी शर्मा, इनफोर्ट्री ।
 43783 के एस शरावत, इनफोर्ट्री ।
 43784 दिग्विजय सिंह, मक इनफोर्ट्री ।
 43785 ए के कालीया, सिग्नल्स ।
 43786 आर ए खान, एसी ।
 43787 पी वी जनार्धनन, इजीनियर्स ।
 43788 एस जेतली, एजीसी ।
 43789 बी मथाना, इनफोर्ट्री ।
 43790 एस सिंगल, आर्टी ।
 43791 एम यू रेडी, सिग्नल्स ।
 43793 जे के चोरसीया, इनफोर्ट्री ।
 43794 एस नन्द, इनफोर्ट्री ।
 43795 ए मुरुगेशन, इनफोर्ट्री ।
 43796 एस गुप्ता, आर्टी ।
 43797 सुनील कुमार वी एस, आर्टी ।
 43798 बी एस माथी, एजीसी ।
 43799 वी के पट्टपीया, इनफोर्ट्री ।
 43801 एस बक्शी, इएमई ।
 43802 आर बी सिंह, मक इनफोर्ट्री ।
 43803 एस एस प्रभू, आर्टी ।
 43804 बी शर्मा, एएससी ।

आर्ह सी नम्बर, नाम और आर्ह

- 43805 अतुल कांवर, इनफोर्ट्री ।
 43806 आर रजन, आर्टी ।
 43807 जयदेव के, सिग्नल्स ।
 43810 बी डी आर्या, आर्टी ।
 43811 बी वत्त, इनफोर्ट्री ।
 43812 पी पी तलवार, एडी आर्टी ।
 43813 के बी एस भीमराजा, इनफोर्ट्री ।
 43814 बी गुरुभाजी, इजीनियर्स ।
 43815 सी शर्मा, एजीसी ।
 43816 के एस कटारिया, एएससी ।
 43817 एन जी रेलकर, सिग्नल्स ।
 43819 ए पी कुमार, इनफोर्ट्री ।
 43820 जी आर एस रेडी, इनफोर्ट्री ।
 43821 एन एस मंगता, एएससी ।
 43822 एन आर बाबू, इनफोर्ट्री ।
 43823 एस सिंह, इनफोर्ट्री ।
 43824 एच एस आलख, ए एससी ।
 43826 आर अनिल कुमार, आर्टी ।
 43827 एस एस नारायणन, इजीनियर्स ।
 43828 ए कुमार, इनफोर्ट्री ।
 43829 आर एस हुडा, इनफोर्ट्री ।
 43830 बी सेबसतिपन, इनफोर्ट्री ।
 43831 वी एन खादिलकर, सिग्नल्स ।
 43832 एस सिंह, मक इनफोर्ट्री ।
 43833 एस के काहली, आर्टी ।
 43835 आर्ह चैटजी, इनफोर्ट्री ।
 43837 आर कुमार, सिग्नल्स ।
 43838 आर पासी, एएससी ।
 43839 ए शर्मा, एडी आर्टी ।
 43840 आर बी पाटिल, एजीसी ।
 43841 के एन गौतम ।
 43842 एम के दास
 43843 ए यावक, इनफोर्ट्री ।
 43844 बी एस नाहल, आर्टी ।
 43846 ए कुमार, इनफोर्ट्री ।
 43847 पी जङ्गल, इजीनियर्स ।
 43849 जे सी शर्मा, आर्टी ।
 43850 आर कुमार, एजीसी ।
 43851 वी सिंह, एसी ।
 43852 आर वी कुमार, इनफोर्ट्री ।
 43854 ए के सखाना, इएमई ।

आइं सी नम्बर, नाम और आर्म

- 43855 एस जी सरपोतदार, मक इनफेटी ।
 43856 एम गणेशचरव, आटी ।
 43857 एन के जगल, आटी ।
 43858 एम कुमार, सिगनल्स ।
 43860 एम बी कदम, इन्ट ।
 43861 पी के गंगवानी, आटी ।
 43862 ए अहूजा, इंजीनियर्स ।
 43863 एस पंत, एडी आटी ।
 43865 पी एम राव, आटी ।
 43867 ए एम गाडे, सिगनल्स ।
 43868 बी दास, इनफेटी ।
 43869 पी कोल, आटी ।
 43870 एस सी शर्मा, सिगनल्स ।
 43872 पी भाटीया, इनफेटी ।
 43873 आर पी के मानदा, आटी ।
 43875 बी मेहता, इनफेटी ।
 43876 एन आर मनजीत, एसी ।
 43877 आर दीवाल, इनफेटी ।
 43878 ए सुन्दरम, इनफेटी ।
 43879 एस के अहलागत, आटी ।
 43880 एस चतुर्वेदी, एएससी ।
 43881 एस सी गप्ता, आटी ।
 43882 एस भट्टाचार्य, इंजीनियर्स ।
 43883 एस शर्मा, एएससी ।
 43884 एस आर सिंह, इनफेटी ।
 43885 एन के सिंह, एएससी ।
 43886 एस कुमार, आटी ।
 43890 के एस उषल, एसी ।
 43891 पी महाराणा, इनफेटी ।
 43892 एन पी एस बाना, इंजीनियर्स ।
 43893 एन दीवानजी, मक इनफेटी ।
 43895 वी एस बी के नायर, आटी ।
 43897 एस सुद, इनफेटी ।
 43898 आर एस हंस, इ.एस.ई. ।
 43899 एच एम महेश्वरी, इनफेटी ।
 43900 ए एस रालेड, इंजीनियर्स ।
 43901 एस के श्रीवाल ।
 43902 एस कुमार, आटी ।
 43903 पी मकजी, इनफेटी ।
 43904 ए पी सिंह, एसी ।
 43906 आर के शर्मा, आटी ।

आइं सी नम्बर, नाम और आर्म

- 43907 के के शर्मा, सिगनल्स ।
 43908 एस पी विश्वानाथ, एसी ।
 43909 वी सिंह, एएससी ।
 43910 असीम जोशी, इनफेटी ।
 43912 एस टंडन, एएससी ।
 43914 आर के माहना, इनफेटी ।
 43915 ए के पात्रा, आटी ।
 43916 आर के तलवार, एसी ।
 43917 आर एस एम फिरजी, आटी ।
 43918 आर मण्डल, इनफेटी ।
 43919 वी सिंह, इनफेटी ।
 43920 डी श्रीवास्तवा, आटी ।
 43921 टी के राज, इनफेटी ।
 43923 आर कपर, ।
 43925 आर कौठारी, इनफेटी ।
 43926 ए एस गिल, एएससी ।
 43927 आर कुमार, इनफेटी ।
 43928 एस भंडारी, आटी ।
 43932 बी कुमार, आटी ।
 43933 आर एस खडगवा, सिगनल्स ।
 43934 ए कपर, आटी ।
 43935 ए पांडे, इनफेटी ।
 43937 वी के मन्नाथ, इनफेटी ।
 43938 आर जगन्नाथ, इनफेटी ।
 43939 एस बी ब्रह्मचर, इंजीनियर्स ।
 43940 डी अगवाल, एसी ।
 43941 आर एस लोचन, एएससी ।
 43942 ए सिंह, एसी ।
 43943 एस खत्री, इनफेटी ।
 43944 वी के बहरी, आटी ।
 43945 आर चावला, एसी ।
 43946 एस दास, इ.एस.ई. ।
 43947 टी अनीजी, सिगनल्स ।
 43948 डी जोधरी, इनफेटी ।
 43949 जे एम बख्शी, एसी ।
 43950 एस बी निरह, सिगनल्स ।
 43951 ए मर्शी, इंजीनियर्स ।
 43952 एस घोष, इनफेटी ।
 43953 इन्दजीम सिंह, मक इनफेटी ।
 43954 एस के संगवान, इनफेटी ।
 43958 वी सिंह, मक इनफेटी ।

आई सी नम्बर, नाम और आम

- 43959 एस वी सिंह, इनफोर्टो ।
 43960 एम वी प्रभु, आर्टी ।
 43962 के एन के पानीकर, इनफोर्टो ।
 43964 पी अग्निहोत्री, इंजीनियर्स ।
 43968 वी कुमार, इनफोर्टो ।
 43969 आर के जूनजा, सिग्नल्स ।
 43970 आर एन सिंह, एसी ।
 48971 आर शर्मा, इनफोर्टो ।
 43972 ए सिंदकानी, एअंसी ।
 43975 एस महरोत्रा, आर्टी ।
 43976 एस के सिन्हा, आर्टी ।
 43978 ए एन तिवारी, आर्टी ।
 43981 एस कपूर, इनफोर्टो ।
 43987 आर शर्मा, इनफोर्टो ।
 43991 एस सिवारमण, आर्टी ।
 43993 आर के वंतरु, एएससी ।
 44014 एस बी सिंह, एईसी ।
 44020 बी एस प्रसाद, एईसी ।
 राष्ट्रपति निम्नलिखित, प्राधिकारियों की 15 जून, 1997

से पदोन्नति करते हैं :—

- 47938 आर के शर्मा, इंजीनियर्स ।
 47939 एस गंगवर, इंएमई ।
 47940 एस एम एच अहमद
 47941 आर के जिन्दल, इंजीनियर्स ।
 47942 एन जी के प्रसाद, इंएमई ।
 47943 एस वी बाजपेयी, इंजीनियर्स ।
 47945 एस पी सिंह, इंएमई ।
 47946 ए के शर्मा
 47947 जी एस जसवाल
 47948 एस सिंह
 47949 जी एस के रेडी, इंजीनियर्स ।
 47951 बी एम बानन, सिग्नल्स ।
 47952 पी कृष्णा, सिग्नल्स ।
 47953 एस एस कुमार, इंजीनियर्स ।
 47954 अमल लाल, सिग्नल्स ।
 47956 पी के श्रीवास्तवा, इंजीनियर्स ।
 47960 डी मर्हन,
 47961 एस के तर्की
 47962 पी जी के मिश्रा ।
 47964 जी पी मंडवा, इंजीनियर्स ।
 47968 ए के वावला, सिग्नल्स ।

आई सी नम्बर, नाम और आम

- 47967 आर वी राव, इंजीनियर्स ।
 47968 एस बड़डा, इंएमई ।
 47970 आर सिंह
 47972 एस कुमार
 47973 सी एम बन्ना
 47975 आई के खराना, इंजीनियर्स ।
 47976 एन कुमार, सिग्नल्स ।
 47978 वी एस बंन्यगोपाल, इंजी. ।
 47979 पी एस राणा, इंएमई ।
 47980 ओ पी सिंह, इंजीनियर्स ।
 47981 यू के शर्मा
 47982 ए किनरा, इंएमई ।
 47984 एस कुमार
 47985 ए टी मथ्यु, इंजीनियर्स ।
 47987 एस के तामर, इंजीनियर्स ।
 47988 वी बी श्रीवास्तवा, सिग्नल्स ।
 47992 एस के गिग
 47995 पी के श्रीवास्तवा, इंएमई
 47996 ए मिश्रा, इंजीनियर्स ।
 47997 ए के अनटनी, इंएमई ।
 47998 ए के अग्रवाल, इंजीनियर्स ।
 47999 एस भल्ला, इंएमई ।
 48000 ए के बहरा, सिग्नल्स ।
 48002 ए पाठक, इंएमई ।
 48003 ए के गौतम, इंजीनियर्स ।
 48004 आर जय प्रसाद
 48008 आर बी सिंह
 48009 गिरधर
 48011 एस शिरीकर, इंजीनियर्स ।
 48012 वी सन्दरनाथ, सिग्नल्स ।
 48015 टी बंन्यगोपाल
 48016 डी टी दीशरे
 48020 सी धनारासू
 48021 वी पाटिल
 48022 एस के कटरा, इंजीनियर्स ।
 48026 वी एम स्वामी, सिग्नल्स ।
 48027 ए के दास, इंएमई ।
 48029 वी जी के कुमार
 48030 आर एस कुमार
 48032 वी के डब
 48033 एन के जैन, इंजीनियर्स ।

आई सी नम्बर, नाम और आर्म

48034 एम भवानी

48036 एस टाउन, ईएमई

48037 के सी प्रसाद

48038 जे प्रसाद

48041 डी के शर्मा

48042 आर सचदेवा, इजीनियर्स

लीफ्टनंट से कौप्टन

आईसी-45016 एम एम ऊनियाल, इन्फ—26-4-88

आईसी-42455 एस पी यादव, एएससी—15-12-89

आईसी-43652 पी कुमार, एएससी—25-4-94

आईसी-48757 जी जे वेधावास, एएससी—24-4-95

आईसी-46608 अमित शर्मा, इन्फ—08-11-95

आईसी-46704 गोतम सिंगल, आर्टी, आईसी-46790

डी एम शर्मा, इन्फ, आईसी-46817 ए कन्दारी, इन्फ—23-4-

96

आईसी-46881 ए एम चौहान, आर्टी—07-11-96

आईसी-46914 आर के चर्मला, इन्फ, आईसी-46921

बी प्रभाकर, एओसी—22-4-97

आई सी नम्बर, नाम और आर्म

51114 ए एस ठाकुर, इजीनियर्स

51115 मकेश कुमार, इजीनियर्स

51116 आर गेहला, ए सी

51117 एस पी सिंह, इजीनियर्स

51118 विद्याल सिंह, ए सी

51119 एस डी फदातरे, सिग्म

51120 देवाराज, सिग्म

51121 बी एस जसवाल, मैक/इन्फ

51122 एन जे सिंह, इन्फ

51123 एम कीहिया, इन्फ

51124 एस एस एन रिजवी, इन्फ

51125 एस सोबली, एडी, आर्टी

51126 ए पी एस हांसी, इजीनियर्स

51127 एन के सिंह, इन्फ

51128 बी सिंह, आर्टी

51129 रजत आवला, सिग्म

51130 एम भटनागर इन्फ

51131 एम पाण्डे, इन्फ

51132 पी अचरथी, इन्फ

51133 बी उपाध्याय, इजीनियर्स

51134 सी प्रभु, ए ओ सी

51135 अनिल कुमार, इन्फ

आई सी नम्बर, नाम और आर्म

51136 एस पी मुरलीधर, एडी आर्टी

51137 बी घेरा, आर्टी

51138 राजेश मेहता, ईएमई

51139 दिजय काला, इन्फ

51140 डी कुमार, इन्फ

51141 प्रजय भूषण, ईएमई

51142 एम गुप्ता, इन्फ

51143 ए शर्मा, इजीनियर्स

51144 आर गुप्ता, आर्टी

51146 एस यादव, एएससी

51147 ए के यादव, एओसी

51148 आर सिंह, एडी आर्टी

51149 बी मल्होत्रा, इन्फ

51150 ए ए साठे, आर्टी

51151 ए जोहर, इन्फ

51154 बी हरिया, एएससी

51156 डी पी सिंह, आर्टी

51157 रवीन्द्र सिंह, इन्फ

51158 एस सिन्धू, ईएमई

51159 पी बाबेपंथी, ईएमई

51160 एस के शेरों, इन्फ

51161 के लोगानाथन, इन्फ

51162 ए एस कहलों, इन्फ

51163 ए मिश्रा, आर्टी

51164 ए महिन्द्र, मैक/इन्फ

51165 बी प्रभाकर, ए ओसी

51166 डी एस ठाका, एएससी

51167 एन जे भट्टाचार्जी, एडी, आर्टी

51168 बी सक्लेश, इन्फ

51169 सुमित मेहता, एसी

51171 आई पी मिश्रा, एओसी

51173 आर एन मुतालिक, इन्फ

51174 डी पी सिंह, आर्टी

51175 जीतन अली, एएससी

51176 एस सती, इन्फ

51177 जी जोबराय, एसी

51178 पी बाई जोहन, आर्टी

51179 ए अग्रवाल, एडी आर्टी

51181 आई राना, एएससी

51182 डी सी बुने, इन्फ

51183 एन शिवशेखरी, इन्फ

सी नम्बर, नाम और आर्म्

- 51184 एम एम पण्डल, इन्जीनियर्स
 51185 सुरेश कुमार, मिग्स
 51186 एम एम सवरवाल, इन्फ
 51187 पी एस विन्ना, ईएम्ई
 51190 आर चौहान, आर्टी
 51191 जी मनोज, ईएम्ई
 51193 एम डी एम दग्गल, आर्टी
 51195 एन पी सिंह, मिग्स
 51197 एस एस यादव, एओसी
 51198 डी सी सी फरमानडिज, इन्फ
 51199 वसन्त सिंह, इन्फ
 51200 पी भोयर, मिग्स
 51201 ए के पटौग्या, इन्फ
 51202 डी खन्ना, एसी
 51205 डी एम आन्व, मिग्स
 51206 सुमित शर्मा, एसी
 51207 निरञ्जल मूद, एजी आर्टी
 51208 एस जगदी, एएमसी
 51209 ए पी अरुण, मिग्स
 51210 एन गुप्ता, इन्फ
 51211 वी एस देशपाण्डे, इन्फ
 51213 एस एस कलकणी, इन्फ
 51214 ए के प्रह्लाद, इन्फ
 51216 टी वी पी कुमार, इन्फ
 51217 मनजीत सिंह, इन्फ
 51218 पी सिंह, आर्टी
 51219 अशोक कुमार, आर्टी
 51220 आर गोपालकृष्णन, इन्फ
 51221 अनिल पंडित, एसी
 51223 रंजन गुप्ता, आर्टी
 51224 डी आर रोत, इन्फ
 51226 एस सी चौधरी, इन्फ
 51227 एन सी शंभल, आर्टी
 51230 आर जे वी ओहोल, आर्टी
 51231 ए बभ्रुजाई, ईएम्ई
 51232 ए कुमार, इन्फ
 51233 एस श्रीवास्तवा, इन्फ
 51235 एम एस अण्डेल, इन्फ
 51236 गरबीर सिंह, आर्टी
 51237 अब्दुल हसीब, इन्फ
 51238 डी डी गुरंगा, इन्फ

आर्टी सी नम्बर, नाम और आर्म्

- 51241 एन पी वैकटेशवरन, आर्टी
 51244 एम विष्ट, इन्फ
 51245 डी एस राजकुमार, एएमसी
 51246 राहुल शर्मा, आर्टी
 51247 एम वक्शी, एओसी
 51248 एम कंकर, इन्फ
 51249 वी पिन्ले, इन्फ
 51250 अनीम कालड़ा, ईएम्ई
 51251 एन के मिथा, एओसी
 51254 वी दिवसेदी, एओसी
 51256 जयवीर सिंह, एएससी
 51257 एच के सेठी, एसी
 51259 आर्च एम मान, एएससी
 51260 डी भंडारा, सिग्स
 51261 एस एस कार्तिके, इन्फ
 51267 ए कुमार, इन्फ
 51268 आर थावक, एसी
 51270 एम जैन, ईएम्ई
 51272 एम चौहान, इन्फ
 51274 जोगिन्द्र सिंह, मैक/इन्फ
 51275 आर श्रीकान्थ, आर्टी
 51276 एच एस कालिया, इन्फ
 51277 जैड भटनागर, इन्फ
 51279 ए पारशर, इन्फ
 51280 एम मिश्रा, इन्फ
 51281 आर शर्मा, इन्फ
 51282 डी मनोज, इन्फ
 51283 एन खंडा, एएमसी
 51284 डी चौधरी, ईएम्ई
 51289 एल के अग्रवाल, आर्टी
 51291 एस उनीयाल, आर्टी
 51293 मन्दीप शर्मा, ईएम्ई
 51294 आर एस नादेल, इन्फ
 51297 ए के शर्मा, आर्टी
 51299 सोमनाथ गुप्ता, आर्टी
 51301 जे के मलिक, इन्फ
 51302 ए तंहुलान, इन्फ
 51303 सुमित पन्त, इन्फ
 51305 अशोक मनोया, एओसी
 51306 आर भार्गवा, ईएम्ई

आई सी नम्बर, नाम और आर्म

- 51307 आर ई मैनन, सिग्स
 51309 एस भारद्वाज, आर्टी
 51310 एच एस बिष्ट, सिग्स
 51312 यू के राव, एएससी
 51315 एस वी राना, इन्फ
 51317 ए चौधरी, इन्फ
 51324 एस पाठक, एएससी
 51325 नील जोहन, एसी
 51326 बी के एस सोईनाम, इन्फ
 51327 आर वत्सा, आर्टी
 51330 आर सिंह, मैक/इन्फ
 51331 ए पी एस सन्धू, एएससी
 51332 गोकुल दास, एडी आर्टी
 51333 ओम प्रकाश, इन्फ
 51337 भास्कर गुप्ता, आर्टी
 51340 आर भारद्वाज, इन्फ
 51341 ए जोस, इन्फ
 51344 एम सी राजाशेखरन, इन्फ
 51345 एस मूलजी, आर्टी
 51346 एन अरोड़ा, एसी
 51352 ए पाण्डे, एएससी
 51353 विजय सिंह, इन्फ
 51356 समीर भल्ला, सिग्स
 51357 अजय जनीयाल, इन्फ
 51361 मनीष बंसरा, एओसी
 51362 वीरेश, मैक/इन्फ
 51365 गीरज शर्मा, एडी आर्टी
 51367 के शकावती, ईएमई
 51368 जी माधुर, आर्टी
 51370 जे पी सतीश्वरी, इन्फ
 51372 पी मेहरा, इन्फ
 51373 अमल गातम, एडी आर्टी
 51374 एम एस चांसर, सिग्स
 51375 जे रावत, इन्फ
 51376 एच एस राठौर, आर्टी
 51378 एम सिरकार, इन्जीनियर्स
 51381 ए जे सिंह, एडी आर्टी
 51383 जे एस बाध, इन्फ
 51385 ए अशवाल, सिग्स
 51387 बी एस गहलवाल, इन्फ

आई सी नम्बर, नाम और आर्म

- 51388 ए चौधरी, एएससी
 51400 ए के शर्मा, एईसी
 51417 डी एस राठौर, एमएफ
 51418 पी के शर्मा, एईसी
 51419 एस एस ठाकूर, एईसी
 51443 आर शर्मा, एईसी
 51466 वी के भट्ट, एईसी—13 जून 1997
 53066 ए एम शायल, इन्जीनियर्स
 53067 एस शर्मा, ईएमई
 53070 आर कालासुब्रामण्यम, इन्जीनियर्स
 53074 आर एम अहलायत, इन्जीनियर्स
 53075 जी सिंह, इन्जीनियर्स
 53077 आई रामनायकर, इन्जीनियर्स
 53083 एम पाठक, इन्जीनियर्स
 53088 ए वत्स, ईएमई
 53090 एस विनोद, सिग्स
 53091 वी आर आर कुमार, ईएमई
 53098 एस के नायक, ईएमई
 53101 ए जे नरेश भाई, ईएमई
 53105 वी एस प्रकाश, इन्जीनियर्स
 53107 के एस के वी राव, ईएमई
 53108 एस अशीष कुमार, ईएमई—14 जून 1997

लॉकटनोट से कौटन

आईसी-50286 जी पी एम वहिया, आर्टी, 50326 एस सिन्हा, एओसी, 50422 आर आर शंकर, ईएमई, 50529 पी सुन्दरेश, एडी आर्टी—08 जून 96

50689 नवीन वर्मा, एडी आर्टी, 50712 ए के वाली, एएससी, 50718 दलबीर सिंह, एओसी, 50724 एस के सिंह, आर्टी, 50726 जी डी सिंह, इन्फ, 50891 एम ए नल्लेटस, एएससी, 50989 संजीव कुमार, एओसी, 50995 पी वी राव, एएससी—14 दिसम्बर 96

51336 वी लखनपाल, सिग्स—13 जून 97

53080 एस भट्टाचार्य, ईएमई—14 जून 97

सत्य बच राव
 सीएसजी
 डीएमएस 8सी

भक्त सेना शाखा

सं. 723, दिनांक 20 अगस्त 97—राष्ट्रपति सहस्र निम्न-
लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

तीपखाना एंजीमेंट

सर्वाधिक सूबेदार भंजर (जी डी) के पद में

सूबेदार नंकराव (जंसी-180452एच)—03 अक्टूबर 1996/
01 अगस्त 1996*

सूबेदार बलबीर सिंह (जंसी-143801के)—09 सितम्बर
1996/*01 सितम्बर 1996

सूबेदार धामस टीटी (जंसी-143800एफ)—01 सितम्बर
1996

सूबेदार राजाकृष्णन (जंसी-157581डब्ल्यू)—03 अक्टूबर
1996/*01 सितम्बर 1996 ।

(*ज्येष्ठता प्राप्ति)

नायब सूबेदार अमीन बन्द नेरयाल (जंसी-203518एच)—01
मई 1996

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जंसी-193408एक्स)—01
जुलाई 1996

नायब सूबेदार आगीर सिंह (जंसी-225937ए)—01 जुलाई
1996

नायब सूबेदार बिरजूकांटा बरादा राव (जंसी-226217एल)
—01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार बरयाम सिंह (जंसी-226853बाई)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार मन्शा राम (जंसी-203545एम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार भीम सिंह वर्मा (जंसी-226229ए)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार राम मोहन (जंसी-226461एल)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार रमबीर सिंह (जंसी-226375ए)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार जैन सिंह (जंसी-255610डब्ल्यू)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार गुरभीत सिंह (जंसी-255225एम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार अब्राहम केरी (जंसी-200230एक्स)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार उषय सिंह (जंसी-203558के)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार बृहम देव राना (जंसी-203510डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार जदगी राम वर्मा (जंसी-203887ए)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार अभय सिंह (जंसी-215445एन)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार अंकर कवीदास वाग्मासे (जंसी-209345एम)
—01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार राम गोपाल (जंसी-221095एच)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार बलचंद्र सिंह (जंसी-223304एम)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार सतीश कुमार सिंह (जंसी-224701वाई)—
01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार विजय कुमार चौधरी (जंसी-223305एल)—
01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार बाहादुर सिंह (जंसी-223335एन)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार रतन सिंह (जंसी-225669एफ)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार प्रद्युम्न त्रिपाठी (जंसी-223608एल)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार शंकर रत्नान (जंसी-223615एफ)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार विजयन के (जंसी-225701एल)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार बी रमना रेड्डी (जंसी-255428डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जंसी-255220एन)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार हरचरण सिंह (जंसी-255378डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार बासवानप्पा मेल्लीहाल्ली (जंसी-226872के)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार मंहर बन्धु मंहाता (जंसी-210053डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जंसी-220037एम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार कुट्टादम पादथ नारायणन (जंसी-193396एन)
—01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार (जंसी-199105वाइ)
अगस्त 1996

नायब सूबेदार एम उथया शंकर (जंसी-199117एन)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार गुरुचरण सिंह (जंसी-201675डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार रतन सिंह (जंसी-200254एफ)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार गुरुमील सिंह (जंसी-203884एम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र शर्मा (जंसी-209324डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार कुन्हीरामन वाडाकीयल (जंसी-221121वाइ)
—01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार सुमर सिंह (जंसी-223684एकम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार माधव सिंह (जंसी-217570डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार दुर्गा देहादुर मल (जंसी-225544के)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार सुरेश सिंह यादव (जंसी-223089एन)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार रत्नवीर सिंह (जंसी-223082के)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार गजेंद्र सिंह (जंसी-225549एच)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार असुरोक सिंह (जंसी-223600वाइ)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार रुद्र शंकर शुकना (जंसी-223594डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार जाधव भरत गोपाळ (जंसी-225219के)—
01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार परताप सिंह (जंसी-226034पी)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जंसी-225573वाइ)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार कबर सिंह (जंसी-226071एच)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार इन्दरज सिंह (जंसी-255119एम)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार भरम ढाल (जंसी-203479पी)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार देव करन सिंह यादव (जंसी-226716एकस)
—01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार विवेक लाल (जंसी-226687डब्ल्यू)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार सुरिंदर (जंसी-226445एन)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार गुरुदेव सिंह (जंसी-223291एफ)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार बलवंत सिंह यादव (जंसी-201710 एन)
—01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार बिसम्बर राम (जंसी-204517एम)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार हनुवंत सिंह (जंसी-203525वाइ)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार बालाकृष्ण असारि के (जंसी-214966पी)
—01 अगस्त 1996

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जंसी-214953एकस)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार महेश प्रसाद (जंसी-221520एच)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार पृथ्वी चन्द (जंसी-225593एम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार फतेह सिंह (जंसी-225733एन)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार सतर्ण सिंह (जंसी-226502के)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार अमीन चन्द गना (जंसी-226841के)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार भद्र देव (जंसी-226524एच)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार करन सिंह (जंसी-226453एम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार सत्य पाल सिंह (जंसी-255159पी)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह (जंसी-255581एम)—01
अगस्त 1996

नायब सूबेदार सोनवीर सिंह (जंसी-255587एम)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जंसी-225225एकस)—01 अगस्त
1996

नायब सूबेदार मोहनम एन (जंसी-193395एल)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जंसी-225212ए)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार कौशी कंसी (जंसी-226829एच)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जंसी-224708एल)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार हरी सिंह (जंसी-225685वाई)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जंसी-226680एम)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जंसी-226758एम)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार महादेव धर्म सालुंखे (जंसी-225947कं)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार मंजर सिंह (जंसी-255508एन)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार शंकर मित्रा (जंसी-255226पी)—01 अगस्त 1996 ।

मेना सेवा कोर (पूर्ति)

नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी/स्टाफ ड्यूटी) के रैंक में
हवलदार नरेंद्र प्रसाद सिंह (6649784 वाई अब जंसी-641382 एफ—31 मार्च 97) ।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वृत्तन और भर्ती पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 96 से दी जाएगी ।

हवलदार गुरनाम सिंह (6649785 एफ अब जंसी-641383 कं—07 मई 97) ।**

**नायब सूबेदार के रैंक में वृत्तन और भर्ती पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 96 से दी जाएगी ।

हवलदार हरमीत सिंह (6649821 एफ अब जंसी-641384 एम—31 मार्च 97) ।=

हवलदार जसपाल मुखोपाध्याय (6649824 पी अब जंसी-641385 पी—02 अप्रैल 97) ।=

हवलदार अयोध्या प्रसाद दूबे (13864550 एल अब जंसी-641386 एक्स—01 मार्च 97) ।

हवलदार बिमल विश्वास (6649716 एल अब जंसी-641387 ए—03 अप्रैल 97) ।=

हवलदार मलय नारायण (6374241 वाई अब जंसी-641388 एच—01 अप्रैल 97) ।=

हवलदार हनुम सिंह मीनी (6372228 डब्ल्यू अब जंसी-641389 एल—01 मार्च 97) ।

हवलदार अरविन्द कुमार सिंह (6372592 पी अब जंसी-641390 ए—31 मार्च 97) ।=

हवलदार गदाधर रामराज (6373365 एफ अब जंसी-641391 एम—15 अप्रैल 97) ।=

—नायब सूबेदार के रैंक में वृत्तन और भर्ती पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च 97 से दी जाएगी ।

हवलदार प्रदीप मिश्रा (6649715 एच अब जंसी-641392 एल—01 अप्रैल 97) ।

हवलदार आम प्रकाश (6649737 एफ अब जंसी-641393 एन—01 अप्रैल 97) ।

हवलदार नरिन्दर पाल सिंह गेहरवार (6649880 एन अब जंसी-641394 डब्ल्यू—03 अप्रैल 97) ।=

हवलदार प्रताप सिंह (6649933 एफ अब जंसी-641395 वाई—01 अप्रैल 97) ।

हवलदार एस चिदम्बरम (6375683 कं अब जंसी-641396 एफ—01 अप्रैल 97) ।

हवलदार गिरेश चन्द्रन एम कं (6376409 वाई अब जंसी-641397 कं—01 अप्रैल 97) ।

—नायब सूबेदार के रैंक में वृत्तन और भर्ती पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 97 से दी जाएगी ।

हवलदार अमर जीत (6376424 एन अब जंसी-641398 एम—01 मई 97) ।

हवलदार जयप्रकाश हंगड कं (6376506 डब्ल्यू अब जंसी-641399 पी—01 मई 97) ।

हवलदार बलदेव सिंह (6377051 डब्ल्यू अब जंसी-641400 वाई—02 मई 97) ।=*

हवलदार कुलदन्त सिंह कथेव (6377112 क अब जंसी-641401 एफ—01 मई 97) ।

हवलदार पाराश्रम गौरव (6377579 पी अब जंसी-641402 कं—01 मई 97) ।

हवलदार गोवर्धन सिंह (6377599 एच अब जंसी-641403 एम—01 मई 97) ।

हवलदार कुलदीप सिंह चौहान (6377750 एच अब जंसी-641404 पी—15 मई 97) ।=*

हवलदार रघवीर सिंह ललोत्रा (6378109 डब्ल्यू अब जंसी-641405 एक्स—05 मई 97) ।=*

हवलदार हरी मोहन मिश्रा (6378119 ए अब जंसी-641406 ए—01 मई 97) ।

हवलदार कृष्ण कुमार (6377052 ए अब जंसी-641407 एम—09 मई 97) ।=*

हवलदार दन सिंह धामी (13863207 डब्ल्यू अब जंसी-641408 एल—09 मई 97) ।=

हवलदार जीत सिंह (6375250 एम अब जेसी-641409 एम—01 मई 97) ।

हवलदार बालमूकन्द चतुर्वर्षी (6650069 एम अब जेसी-641410 एम—01 मई 97) ।

हवलदार राम निवास सिंह (6377165 एम अब जेसी-641411 एम—01 मई 97) ।

हवलदार रजवीर सिंह (6378072 ए अब जेसी-641412 एम—01 मई 97) ।

—*नायब सूबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्ते पर प्रभाव जर्नल बिना व्यंजना 01 मई 97 में दी जाएगी ।

(गणितिक परीखहन)

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (पीडित) पूरन चन्द्र जोशी (जेसी-138178पी), —01 मई 1997 ।

नायब सूबेदार (पीडित) धना नन्द रहरा (जेसी-138179एक्स), —01 मई 1997 ।

नायब सूबेदार (पीडित) राम भूवन प्रसाद मिश्रा (जेसी-138180 एम), —01 मई 1997 ।

पापनिगर कोर

सूबेदार मंजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार (जीडी) नीरंग शाल (जेसी-174891एक्स)—01 अक्टूबर 1996 ।

सूबेदार (जीडी) जामिनीक के एम (जेसी-178694एम), —01 जनवरी 1997 ।

सूबेदार (जीडी) हर्षवर दत्त (जेसी-178697ए)—01 जनवरी 1997 ।

सूबेदार (जीडी) रमेश लाल (जेसी-178699एल), —01 मार्च 1997 ।

सूबेदार (जीडी) उपेन्द्र कुमार जेता (जेसी-178700पी) 01 मई 1997 ।

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) गोपीन्दर कुमार (जेसी-198865पी) —01 अक्टूबर 1996 ।

नायब सूबेदार (जीडी) राम धारी (जेसी-198866एक्स) —01 अक्टूबर 1996 ।

नायब सूबेदार (जीडी) हार्शियार सिंह (जेसी-198867ए)—01 दिसम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार (जीडी) अटल बिहारी हाजरा (जेसी-198868 एच)—01 दिसम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार (जीडी) अमरन्ता प्रसाद ठाकुर (जेसी-198869 एल)—01 दिसम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार (जीडी) जाहर लाल जाणा (जेसी-198912एफ) —01 दिसम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार (जीडी) कमल मीकिया (जेसी-198913के)—01 जनवरी 1997 ।

नायब सूबेदार (जीडी) उमेश कलीता (जेसी-198914एम)—01 जनवरी 1997 ।

नायब सूबेदार (जीडी) कमलेश्वर प्रसाद शक्ला (जेसी-198915पी)—01 जनवरी 1997 ।

नायब सूबेदार (जीडी) राधेप्याम तिवारी (जेसी-198916 एक्स)—01 फरवरी 1997 ।

प्रकाश चन्द्र
अवर सचिव

सं. 724, दिनांक 26 अगस्त 1997—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित पदान्तरितियां करती हैं :—

लिखित मंता

इन्फेन्ट्री

ग्रिनीडियस

सूबेदार मंजर के रैंक में

सूबेदार फेला लाल मीना (जेसी-181772के)—01 अगस्त 1996 ।

सूबेदार इब्राहीम (जेसी-157282एक्स)—01 फरवरी 1997 ।

सूबेदार बृम्हा नन्द (जेसी-151206पी)—01 मार्च 1997 ।

सूबेदार खुमान सिंह (जेसी-127505 पी)—01 अप्रैल 1997 ।

सूबेदार महन्ता राम (जेसी-157280एम)—01 अगस्त 1997 ।

सूबेदार निजामुद्दीन (जेसी-199199एफ)—01 अप्रैल 1997 ।

सूबेदार मंजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) कलदीप कुमार उर्मा (जेसी-196179 एच)—01 मार्च 1997 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कजेण मल (जेसी-19367 एच)—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार समुद्र सिंह गठौर (जेसी-205486के)—01 जनवरी 1997 ।

नायब सूबेदार नंद सिंह (जैसी-220131डब्ल्यू)—01 फरवरी 1997 ।

नायब सूबेदार धूप सिंह (जैसी-199208एक्स)—01 फरवरी 1997 ।

नायब सूबेदार हीशियार सिंह शंखावत (जैसी-218439एल)—01 फरवरी 1997 ।

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जैसी-210968एच)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार दत्त राम (जैसी-448006एम)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जैसी-448354एन)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार गनपत सिंह (जैसी-220145डब्ल्यू)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जैसी-448073एक्स)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह शिकारा (जैसी-448081डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार राम देव मीना (जैसी-448117के)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार भंवर लाल (जैसी-448178एफ)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार निरूपाल सिंह (जैसी-448001एन)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार रंगा सिंह (जैसी-205872डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार मदन सिंह (जैसी-220704पी)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार भंवर जूही (जैसी-448089एच)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार गोमा राम (जैसी-220710एच)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार सुनामत खान (जैसी--218434एम)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार राम तिवाम (जैसी-192545के)—01 जून 1997 ।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में-

नायब सूबेदार (लिपिक) आंकार चन्द शर्मा (जैसी-448020 वाई)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) लंक राम चन्देल (जैसी-448041पी)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) बलदेव सिंह भाटिया (जैसी-448057ए)—01 अप्रैल 1997 ।

दी राजपूताना सइफल्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद थालेर (जैसी-220928पी)—28 जून 1996 ।

नायब सूबेदार धूप सिंह (जैसी-220929एक्स)—01 अक्टूबर 1996 ।

नायब सूबेदार राम कुमार (जैसी-224390डब्ल्यू)—01 नवम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जैसी-201879एच)—01 फरवरी 1997 ।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जैसी-468026एफ)—01 फरवरी 1997 ।

नायब सूबेदार मूल चन्द (जैसी-468108के)—01 फरवरी 1997 ।

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जैसी-182978एन)—01 मई 1997 ।

नायब सूबेदार भूप सिंह (जैसी-185728एक्स)—01 मई 1997 ।

सिख रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार करनल सिंह (जैसी-194605 एम)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार जगीर सिंह (जैसी-208100 के)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जैसी-498087 एल)—01 जुलाई 1997 ।

सूबेदार मंजर के रैंक में

सूबेदार हरभजन सिंह (जैसी-159203 डःल्यू)—01 जून 1997 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जैसी-208096 एम)—01 जून 1997 ।

सिख लाइट इन्फेन्ट्री

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) प्रीतम सिंह (जैसी-61833 ए)—01 जुलाई 1997 ।

सूबेदार मेजर (जी. डी.) के रैंक में

सूबेदार रघबीर सिंह (जैसी-163660 एफ)—01 मई 1997 ।

सूबेदार हर्भजन सिंह (जैसी-164572 एक्स)—01 मई 1997 ।

सूबेदार मोहनन्दर सिंह (जेसी-168896 ए)—01 जून 1997 ।

सूबेदार गेजर (कलकत्ता) के रैंक में

सूबेदार (कलकत्ता) रामेश्वर दत्त काशियानिया (जेसी-196867 एफ)—01 जून 1997 ।

सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार सलीबन्दर सिंह (जेसी-211132 एल)—01 फरवरी 1996 ।

नायब सूबेदार वाग सिंह (जेसी-216574 ए)—01 मार्च 1996 ।

नायब सूबेदार सरवारा सिंह (जेसी-216568 एम)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जेसी-216576 एल)—01 सितम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-216577 एन)—01 सितम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-220989 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार सुरिन्दर पाल सिंह (जेसी-218286 एम)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-220991 के)—01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-212645 वाई)—01 मई 1997 ।

नायब सूबेदार ठाकर सिंह (जेसी-508106 के)—01 जुलाई 1997 ।

डोंगरा रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुख राम (जेसी-518026 ए)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार प्रताप चन्द धिमान (जेसी-518036 के)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-518037 एम)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार धमरेल राम (जेसी-518196 के)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार चरन दास (जेसी-518074 ए)—01 मई 1997 ।

नायब सूबेदार मरहर सिंह (जेसी-518061 एच)—01 मई 1997 ।

a-25401/97

नायब सूबेदार साहिब सिंह (जेसी-518198 पी)—01 मई 1997 ।

नायब सूबेदार प्रताप चन्द (जेसी-518205 ए)—01 मई 1997 ।

नायब सूबेदार प्यार चन्द शर्मा (जेसी-518082 वाई)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-518062 एम)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार बिला राम (जेसी-518053 एन)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार रतन चन्द (जेसी-518248 पी)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार रघवीर सिंह पठानिया (जेसी-518029 एन)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह जसरायिया (जेसी-518067 के)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार रोजन्दर सिंह चौहान (जेसी-518068 एम)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार मिलाप चन्द (जेसी-518206 एन)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार धीरन्दर सिंह (जेसी-518267 एफ)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-518207 एम)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार जगवीश चन्द (जेसी-518069 पी)—01 जुलाई 1997 ।

गढ़वाल राइफल

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) राम ब्याल यहनुणा (जेसी-118912 डब्ल्यू)—01 जनवरी 1996 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र सिंह कंथर (जेसी-152563 एक्स)—01 जून 1996 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार महन सिंह (जेसी-178612 वाई)—01 सितम्बर 1995 ।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) इन्द्र देव नीट्याल (जेसी-138611 एन)—01 मई 1997 ।

कमाऊं रेजीमेन्ट

सूबेदार गेजर के रैंक में

सूबेदार, दया राम यादव (जंसी-187089 एफ)—01 फरवरी 1997 ।

सूबेदार महेंद्र सिंह यादव (जंसी-169216 एफ)—01 फरवरी 1997 ।

सूबेदार सुमेर सिंह (जंसी-171997 वाई)—01 फरवरी 1997 ।

सूबेदार फते सिंह (जंसी-169409 एफ)—01 फरवरी 1997 ।

सूबेदार के रैंक में

ना. सूबे. परताप सिंह (जंसी-208167 एफ)—01 अक्टूबर 1996 ।

ना. सूबे. विशम्बर (जंसी-538044 को)—01 नवम्बर 1996 ।

ना. सूबे. वरुण सिंह (जंसी-212694 एफ)—01 मई 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक हरी सिंह (जंसी-218316 वाई)—01 दिसम्बर 1996 ।

ना. सूबे. लिपिक जयबीर सिंह यादव (जंसी-220757 एन)—01 दिसम्बर 1996 ।

ना. सूबे. लिपिक अमर सिंह शोरा (जंसी-220758 डब्ल्यू)—01 जनवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक नन्दे लाल (जंसी-224457 को)—01 जनवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक बसन्त कुमार पंत (जंसी-220759 वाई)—01 जनवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक चरण सिंह (जंसी-220760 एन)—01 फरवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक वान सिंह (जंसी-220761 डब्ल्यू)—01 फरवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक लक्ष्मण राम (जंसी-220763 एफ)—01 फरवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक श्रीमा राम चौधरी (जंसी-224459 पी)—01 फरवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक देवेन्द्रप्रसाद पंत (जंसी-538011 वाई)—01 फरवरी 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक धरम पाल सिंह रांगधान (जंसी-538014 एम)—01 मार्च 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक धन सिंह मंगल (जंसी-538012 एफ)—01 मार्च 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक हरि सिंह काकोरी (जंसी-220762 वाई)—01 अप्रैल 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक भूजा राम वर्मा (जंसी-538049 एम)—01 अप्रैल 1997 ।

ना. सूबे. लिपिक सुरेन्द्र सिंह परिहार (जंसी-538042 वाई)—05 अप्रैल 1997 ।

नागा रेजीमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

ना. सूबे. दरबान सिंह (जंसी-201103 पी)—01 अप्रैल 1997 ।

कमाऊं रेजीमेन्ट

ना. सूबे. रामेश्वर (जंसी-204141 डब्ल्यू)—01 जून 1995 ।

ना. सूबे. रामोतार (जंसी-206010 को)—01 मार्च 1996 ।

ना. सूबे. श्योताज सिंह (जंसी-212676 वाई)—01 मार्च 1996 ।

ना. सू. बलबीर सिंह (जंसी-212677 एफ)—01 मार्च 1996 ।

ना. सूबे. नम सिंह (जंसी-212703 एक्स)—01 मार्च 1996 ।

ना. सूबे. बलबीर सिंह (जंसी-212678 को)—01 अक्टूबर 1996 ।

ना. सूबे. सुशी राम यादव (जंसी-212680 एफ)—01 अक्टूबर 1996 ।

ना. सूबे. चन्दगी राम (जंसी-212681 को)—01 नवम्बर 1996 ।

ना. सूबे. जयपाल सिंह यादव (जंसी-219737 एन)—01 दिसम्बर 1996 ।

ना. सूबे. श्यांभ्या प्रसाद (जंसी-219738 डब्ल्यू)—01 जनवरी 1997 ।

ना. सूबे. महाबीर (जंसी-221026 एम)—01 फरवरी 1997 ।

ना. सूबे. श्री कृष्णा (जंसी-221027 पी)—11 मार्च 1997 ।

ना. सूबे. राजा राम यादव (जंसी-221037 वाई)—01 अप्रैल 1997 ।

ना. सूबे. नारायण दत्त भट्ट (जंसी-538091 एफ)—01 फरवरी 1997 ।

ना. सूबे. सुखबीर सिंह (जंसी-219749 एम)—01 अप्रैल 1997 ।

ना. सूबे. निहाल सिंह (जंसी-219750 एक्स)—01 जून 1997 ।

बिहार रेजीमेन्ट

महाराष्ट्र रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार जगन्नाथ सिंह (जैसी-204170 एल)—01
मार्च 1996 ।

नायब सूबेदार हरद्वार सिंह (जैसी-205251 एक्स)—01
अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार श्री कृष्णा सिंह (जैसी-212728 के)—01
अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार विष्णु सिंह यादव (जैसी-216639 एच)—01
जून 1997 ।

नायब सूबेदार सिलास टॉपचं (जैसी-212951 एन)—01
जून 1997 ।

नायब सूबेदार हालन बरजो (जैसी-173251 एफ)—01 सित-
म्बर 1995 ।

नायब सूबेदार कुन्दिथा रामव (जैसी-173253 एम)—01
जून 1997 ।

नायब सूबेदार प्रभांव कुमार सिंह घायल (जैसी-212971 एफ)
—01 अगस्त 1996 ।

नायब सूबेदार बिरसा एन्ड (जैसी-188549 एच)—01 अगस्त
1996 ।

नायब सूबेदार कामेश्वर पासवान (जैसी-220237 एच)—01
सितम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार थिलियम मिंज (जैसी-188550 एक्स)—01
सितम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार रिजियुस कजूर (जैसी-188551 एक्स)—01
सितम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार सुकदेव राम (जैसी-220238 एल)—01
सितम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार श्री भगवान सिंह (जैसी-558087 ए)—01
अक्टूबर 1996 ।

नायब सूबेदार सत्रोहन सिंह (जैसी-558089 ए)—01
नवम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार नवल किशोर सिंह (जैसी-558090 ए)—01
नवम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार लोकनाथ नायक (जैसी-218041 डब्ल्यू)—01
नवम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार धनेश्वर यादव (जैसी-218341 एन्म)—01
नवम्बर 1996 ।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार राजेश्वर भा (जैसी-138612 एम)—01 मई
1997 ।

नायब सूबेदार भाग्यम्बा झा (जैसी-138613 वाई)—01 मई
1997 ।

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार धर्म शिक्षक बन्नी प्रसाद-पुरीहित (जैसी-62228 वाई)
—01 जुलाई 97 ।

सूबेदार धर्म शिक्षक बाघस्परी शर्मा (जैसी-54890 वाई)—
01 जुलाई 97 ।

जम्मू और काश्मीर राइफल्स

सूबेदार मेजर (धार्मिक अध्यापक) के रैंक में

सूबेदार (पण्डित) दिवान चन्व शर्मा (जैसी-59883 एम)—
जैक राइफल्स—01 अप्रैल 97 ।

सूबेदार मेजर (बी. डी.) के रैंक में

सूबेदार गोपी चन्ना अधिकारी (जैसी-152201 एच) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

सूबेदार रनजीत सिंह जसराठिया (जैसी-155496 पी) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

सूबेदार बलराज सिंह (जैसी-168611 एच) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

सूबेदार नागपाल (जैसी-179459 ए)—जैक राइफल्स—01
जनवरी 97 ।

सूबेदार सीता राम मालिक (जैसी-172604 के) जैक राइ-
फल्स—01 जनवरी 97 ।

सूबेदार मीन सिंह (जैसी-192695 ए) जैक राइफल्स—01
जनवरी 97 ।

सूबेदार बृहम शस ठाकुर (जैसी-213980 एच) जैक
राइफल्स—01 मार्च 97 ।

सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार विष्णु प्रसाद जायसी (जैसी-196612 एफ) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार जगदीश चन्व (जैसी-220286 एल) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार हेम राज (जैसी-578032 एक्स) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जैसी-211334 वाई) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार मृज्जफर खान (जैसी-193883 ए) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार अमरिका राम (जैसी-213003 डब्ल्यू) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार नारायण सिंह चौहान (जैसी-222802 एन) जैक
राइफल्स—01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार स्वरूप लाल (जैसी-220301 पी) जैक राइफल्स—
01 दिसम्बर 96 ।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जैसी-213002 एन) जैक
राइफल्स—01 जनवरी 97 ।

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जंसी-205708 एन) जंके राईफल्स—01 जनवरी 97 ।

नायब सूबेदार कपूर सिंह (जंसी-211323 एम) जंके राईफल्स—01 जनवरी 97 ।

नायब सूबेदार नारायण बहादुर काकी (जंसी-578174 पी) जंके राईफल्स—01 जनवरी 97 ।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जंसी-218365 एफ) जंके राईफल्स—01 जनवरी 97 ।

नायब सूबेदार हुकम चन्द घन्देल (जंसी-578146 एच) जंके राईफल्स—01 जनवरी 97 ।

नायब सूबेदार गुरख्याल सिंह (जंसी-220797 पी) जंके राईफल्स—01 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार विजय कुमार (जंसी-213010 एम) जंके राईफल्स—01 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार लछमन सिंह (जंसी-211337 एम) जंके राईफल्स—01 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जंसी-211338 एच) जंके राईफल्स—01 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार बुआ दित्ता (जंसी-578069 बाई) जंके राईफल्स—01 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार श्रीर सिंह (जंसी-224481 ए) जंके राईफल्स—01 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार विद्या सागर (जंसी-578065 एच) जंके राईफल्स—01 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जंसी-578105 बाई) जंके राईफल्स—01 मार्च 97 ।

नायब सूबेदार बंधी चन्द (जंसी-220809 बाई) जंके राईफल्स—01 मार्च 97 ।

नायब सूबेदार मन् राज (जंसी-222795 बाई) जंके राईफल्स—01 मार्च 97 ।

नायब सूबेदार शाम सिंह (जंसी-220793 बाई) जंके राईफल्स—01 मार्च 97 ।

जम्मू और काश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

अस सूबेदार रैंक की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार पंजाब सिंह (जंसी-203852 के)—01 जून 97 ।

नायब सूबेदार सरवन सिंह (जंसी-205726 डब्ल्यू)—01 जून 97 ।

नायब सूबेदार बचन लाल (जंसी-221057 एम)—01 जनवरी, 97 ।

नायब सूबेदार कपूर सिंह (जंसी-221058 के)—13 जनवरी 97 ।

नायब सूबेदार दिना नाथ (जंसी-592012 पी)—18 फरवरी 97 ।

नायब सूबेदार राम सिंह (जंसी-592027 बाई)—01 अप्रैल 97 ।

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जंसी-592076 ए)—01 अप्रैल 97 ।

11 जी. आर.

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार श्याम कुमार राई (जंसी-152244 एक्स)—01 दिसम्बर 96 ।

सूबेदार जागिर मान राई (जंसी-156974 ए)—01 मई 97 ।

सूबेदार के रैंक में

ना. सू. लाहग सुब्बा (जंसी-208220 एच)—01 दिसम्बर 96 ।

ना. सू. देव बहादुर राई (जंसी-208221 एल)—01 दिसम्बर 96 ।

ना. सू. बिशन बहादुर थापा (जंसी-211385 एम)—01 फरवरी 97 ।

1 जी. आर.

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नरेश राना (जंसी-206027 एक्स)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार राज बहादुर गुर्ग (जंसी-206028 ए)—01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार इक बहादुर राना (जंसी-199364 एफ)—01 जून 1997 ।

3 जी. आर.

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह थापा (जंसी-203864 बाई)—01 फरवरी 1997 ।

नायब सूबेदार गंगा बहादुर आले (जंसी-203865 एफ)—01 मार्च 1997 ।

नायब सूबेदार टंका बहादुर भगर (जंसी-220338 डब्ल्यू)—01 जुलाई 1997 ।

8 जी. आर.

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बूर्गा प्रसाद आमगई (जंसी-205397 एल)—01 नवम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार पदम बहादुर थापा (जंसी-205828 एम)—01 दिसम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार जगत बहादुर आले (जंसी-205829 पी)—01 जनवरी 1997 ।

नायब सूबेदार रूक बहादुर सिंगजापीत (जंसी-212796 एक्स)—01 जनवरी 1997 ।

नायब सूबेदार कौहर सिंग बंगा (जंसी-212797 ए)—01 फरवरी 1997 ।

टी. सी. जैन
अवर सचिव

सिना शाखा

नं. 725, दिनांक 4 अगस्त 1997—भारत के राष्ट्रपति सूत्र होकर निम्नलिखित हवलदारों की नायब सूबेदारों की पदांनति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

1031 मुख्यालय रेलवे इंजीनियर रजिमेंट (प्रादेशिक सेना)

सिना नं., पद व नाम और पदांनति की तारीख

12229413 (अब टीजे-4318) हव. पृथ्वी चन्द—15 अप्रैल 97 ।

12189330 (अब टीजे-4319) हव. भूपेन्द्र सिंह—15 अप्रैल 97 ।

12207979 (अब टीजे-4320) हव. के. एन. शंकर—15 अप्रैल 97 ।

123 इन्फेन्ट्री बटालियन (टी.ए.)

नायब सूबेदार के रैंक में

सं. 10302015 (अब टीजे-4321) हवलदार सुरेन्द्र सिंह—15 अप्रैल 97 ।

सं. 10302043 (अब टीजे-4322) हवलदार नारायण राम—15 अप्रैल 97 ।

सं. 10302082 (अब टीजे-4323) हवलदार मूल सिंह—15 अप्रैल 97 ।

119 इन्फेन्ट्री बटालियन (टी.ए.)

नायब सूबेदार के रैंक में

10244309 (अब टीजे-4328) हवलदार महेश्वर सिंह—01 मई 97 ।

124 इन्फेन्ट्री बटालियन (टी.ए.) सिख

103140854 (अब टीजे-4330) हवलदार जंगली प्रसाद—01 अप्रैल 97 ।

1103 रेलवे अभियन्ता सैन्यश्रम (प्रादेशिक सेना)

नायब सूबेदार

नं., पद व नाम और पदांनति की तारीख

12311921 (अब टीजे-4315) हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद गांधुर—30 मार्च 96 ।

बी. एन. सिंह
अवर सचिव

सं. 726, दिनांक 21 अगस्त 1997—राष्ट्रपति, नौसेना विनियमावली भाग 3 सांख्यिकी के विनियम 121 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में निम्नलिखित पदांनतियां करते हैं :—

नौसेना शाखा

(स्थायी कमीशन)

सय. ल. से ल.

नाम/व्यक्तिगत सं. और ल. की पदांनति की तिथि/वरीयता सं

विनीत बत्रा (03986 एच)—16-5-97/16-5-96 ।

मनीष राव (04150 एफ)—01-10-96 ।

अजय यादव (04179 वाई)—01-12-96 ।

एच अवतार (04147 जेड)—16-10-96 ।

वी शंकर (04184 एब)—01-04-96 ।

रजत नागपाल (04225 ए)—16-8-96 ।

मनीष धारणे (04264 आर)—16-9-96 ।

ए खन्ना (04218 के)—16-10-96 ।

एम सोमासेखर (04211 डब्ल्यू)—01-05-97 ।

एस एस सरना (04235 जेड)—16-1-97 ।

अतूल नन्दा (04261 एच)—01-09-96 ।

सदुल शाह (04222 डब्ल्यू)—16-7-97/16-4-97 ।

एस पूरुषोत्तम (04237 बी)—16-5-97 ।

अनिल कुमार (04316 एन)—16-2-97 ।

एस रागनाथन (04358 बी)—16-3-97 ।

अमनप्रीत सिंह (04333 वाई)—16-3-97 ।

आर के रस्तोगी (04369 बी)—01-4-97 ।

ए के तोमर (04366 वाई)—16-4-97 ।

एम के झा (04351 एन)—16-4-97 ।

रणधीर सिंह (04367 जेड)—16-4-97/16-10-96 ।

अजय यादव (04370 एफ)—16-4-97 ।

ए गुरुबक्षानी (04359 एफ)—01-5-97 ।

जे एस धूमान (04368 ए)—01-5-97 ।

आर रानपूले (04354 डब्ल्यू)—16-5-97 ।

ए श्रीवास्तवा (04372 के)—16-5-97 ।

बी के डागर (04349 एब)—01-6-97 ।

बी बी नालन (04350 के)—01-06-97 ।

वाई पी शर्मा (04330 आर)—01-7-97 ।

आर कल्याणुनी (04357 ए)—16-5-97 ।

राष्ट्रपति, नौसना विनियमावली भाग 3 सांविधिक के विनियम 121 के अधीन भारतीय नौसना की कार्यकारी शाखा में निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नौसना शाखा

(स्थायी कमीशन)

कार्यकारी सभ. लं. शं. लं. सब. लं.

नाम/व्यक्तिगत सं. आर पदोन्नति की तिथि/वरीयता केवल
आर् के सिन्हा (04105 बी)—19-11-95/01-7-93 ।
डी एस सिहाग (04173 एच)—22-12-96/01-1-94 ।
ए ए वाडीकर (04247 ए)—17-3-96/01-7-94 ।
अतुल नन्दा (04261 एच)—26-11-96/01-7-94 ।
ए के पाण्डे (04213 जेड)—21-7-96/01-7-94 ।
एस एस अनपत (04233 डब्ल्यू)—16-3-97/01-7-94 ।
के एस बालाजो (04321 डब्ल्यू)—09-3-97/01-1-95 ।
गुधीर विक्षित (04336 बी)—09-3-97/01-1-95 ।
सी डी काले (04437 एच)—16-3-97/01-7-95 ।
एच जे सिंह (04442 डब्ल्यू)—16-3-97/01-7-95 ।
प्रशान्त हांडू (04454 वाई)—16-3-97/01-7-95 ।
एस एच आजाद (04394 के)—16-3-97/01-7-95 ।
बी रगानाथन (04396 आर)—16-3-97/01-7-95 ।
के एच वी सिंह (04447 एफ)—16-3-97/01-7-95 ।
एच बहुगुणा (04411 जेड)—16-3-97/01-7-95 ।
धीरज खन्ना (04434 ए)—16-3-97/01-7-95 ।
एस वी शिन्दे (04427 के)—16-3-97/01-7-95 ।
अमित पुरी (04441 टी)—16-3-97/01-7-95 ।
ए एस कुमार (04450 एन)—16-3-97/01-7-95 ।
ए के अब्राहम (04417 एन)—16-3-97/01-7-95 ।
एच नतुर्धारी (04388 वाई)—16-3-97/01-7-95 ।
एस सीताराम (04439 एन)—16-3-97/01-7-95 ।
समीर चौधरी (04392 एफ)—16-3-97/01-7-95 ।
जे श्रीवास्तवा (04424 जी)—16-3-97/01-7-95 ।
श्रीधर कुमार (04422 जेड)—16-3-97/01-7-95 ।
हैपी सोहन (04415 एच)—16-3-97/01-7-95 ।
एच सलुंखे (04404 एच)—16-3-97/01-7-95 ।
एस पुरणानन्द (04453 डब्ल्यू)—16-3-97/01-7-95 ।
ए राय (04408 टी)—16-3-97/01-7-95 ।
कृषिक होंटा (04413 बी)—16-3-97/01-7-95 ।
के नन्दा (04414 एफ)—16-3-97/01-7-95 ।

बीरा किशोर (04429 आर)—16-3-97/01-7-95 ।
डी एस सुहाग (04386 टी)—16-3-97/01-7-95 ।
एन मधावेन (04423 ए)—16-3-97/01-7-95 ।
बी राम राज (04455 जेड)—16-3-97/01-7-95 ।
डी फोडर (04449 के)—16-3-97/01-7-95 ।
सी पी रांशन (04430 टी)—16-3-97/01-7-95 ।
एस गोपीनाथ (04391 बी)—16-3-97/01-7-95 ।
ड्री जयरथ (04402 बी)—16-3-97/01-7-95 ।
रिची राजन (04435 बी)—16-3-97/01-7-95 ।
ए एस सिसोदिया (04382 एच)—16-3-97/01-7-95 ।
के पी एस माहर (04403 एफ)—16-3-97/01-7-95 ।
बी त्रिपाठी (04406 एन)—16-3-97/01-7-95 ।
के सी प्रशान्त (04426 एच)—16-3-97/01-7-95 ।
बी के बहिया (04385 आर)—16-3-97/01-7-95 ।
रुत पाल सिंह (04395 एन)—16-3-97/01-7-95 ।
ए नारायणन् (04397 टी)—16-3-97/01-7-95 ।
संजय काडर (04425 एफ)—16-3-97/01-7-95 ।
हरनीत सिंह (04448 एच)—16-3-97/01-7-95 ।
एस जी लाम्बा (04381 एफ)—16-3-97/01-7-95 ।
अरुण पाती (04401 ए)—16-3-97/01-7-95 ।
अशीश नागर (04390 ए)—16-3-97/01-7-95 ।
एम डी जोशी (04444 जेड)—16-3-97/01-7-95 ।
एस रवि कुमार (04431 डब्ल्यू)—16-3-97/01-7-95 ।
हमेन्त कुमार (04418 आर)—16-3-97/01-7-95 ।
ए पारसनिश (04428 एन)—16-3-97/01-7-95 ।
ए देवावत (04405 के)—16-3-97/01-7-95 ।
ओ पी सिंह (04409 डब्ल्यू)—16-3-97/01-7-95 ।
बलवीर सिंह (04384 एन)—16-3-97/01-7-95 ।

अरुण कमाल
एस सी एस ओ
डी डी ओ पी (जे ओ ए एण्ड आर)

वैमानिक गुणता आवासन महानिदेशालय

रक्षा वैमानिक गुणता आवासन सेवा

सं. 727, दिनांक 26 अगस्त 1997—वैमानिक गुणता आवासन महानिदेशालय के श्री एन. पी. नारायण, डी. सी. एस. ओ. दिनांक 21-8-1997 (पूर्वाह्न) को स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं ।

जे. पी. दत्त
डैस्क अधिकारी

थल सेना विभाग

सं. 728, दिनांक 14 अगस्त 1997—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को अभ्यर्षिता आदि प्राप्त करने पर सेना से नियत होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

मंजर जनरल बी. पी. सिंह (एम आर-1500) ए.एम.सी./पी.सी.—30-06-96 (अपराह्न) ।

मंजर जनरल डी.पी. बनर्जी (एम आर-1954) ए.एम.सी./पी.सी.—30-06-96 (अपराह्न) ।

मंजर जनरल जी.एस. ओकटानिया (एम आर-1890) ए.एम.सी./पी.सी.—30-06-96 (अपराह्न) ।

मंजर जनरल पी. सत्यपालन (एम आर-1805) ए.एम.सी./पी.सी.—30-06-96 (अपराह्न) ।

लै. कर्नल (श्रीमती) एस. पासी (एम आर-3794) ए.एम.सी./पी.सी.—31-07-96 (अपराह्न) ।

लै. कर्नल आ.पी. शर्मा (एम आर-2445) ए.एम.सी./पी.सी.—31-03-97 (अपराह्न) ।

क्रम सं. वैयक्तिक सं. नाम व आर्म

1. डब्ल्यू एस 00053 एम पी अश्विनाश राव, इ.एम.ई.
2. डब्ल्यू एस 00058 मंजू अरोड़ा, इ.एम.ई.
3. डब्ल्यू एस 00060 ए मूलरी, इ.एम.ई.
4. डब्ल्यू एस 00070 ए गुप्ता, इ.एम.ई.
5. डब्ल्यू एस 00072 डी वाम, इ.एम.ई.
6. डब्ल्यू एस 00083 एस के नय्यर, इ.एम.ई.
7. डब्ल्यू एस 00085 ए कांसरा, इ.एम.ई.
8. डब्ल्यू एस 00089 पी मित्र, इ.एम.ई.
9. डब्ल्यू एस 00091 आर शंकरन, इ.एम.ई.
10. डब्ल्यू एस 00092 बी एम. हयाणन, इ.एम.ई.
11. डब्ल्यू एस 00093 एस भट्टाचारजी, सिग्नल्स
12. डब्ल्यू एस 00098 बी जे तिरगण्डी, सिग्नल्स

लै. कर्नल एस.एम. रावत (एम टी आर-16349) ए.एम.सी./पी.सी.—30-06-96 (अपराह्न) ।

लै. कर्नल सी.आर. साहू (एम टी आर-16305) ए.एम.सी./पी.सी.—31-03-97 (अपराह्न) ।

जे. सी. शर्मा
सर्जन रियर एड्डीमरल
अपर म. नि. म. से. कि. सेवा

सेना शाखा

शुद्धिपत्र

सं. 729, दिनांक 20 अगस्त 1997—पूर्व-चिनांकित वीरिष्ठता देने के बाद सेफ्टनेट के मूल रैंक में पदोन्नत करने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों के नाम निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचना संख्याओं से, जो कि शीर्षक "नियमित सेना, अल्प सेवा कमीशन" व उपशीर्षक "2/ले. से ले.", को अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे, से हटा दिए जाएं :—

ले. के मूल रैंक में
पदोन्नति की तिथि

राजपत्र सं. व
प्रकाशन की तिथि

- | | |
|---------|--------------------------|
| 5-3-96 | 494/96 दिनांक
10-8-96 |
| 5-3-96 | 494/96 दिनांक
10-8-96 |
| 5-3-96 | 494/96 दिनांक
10-8-96 |
| 5-3-96 | 494/96 दिनांक
10-8-96 |
| 5-3-96 | 494/96 दिनांक
10-8-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |
| 20-8-96 | 728/96 दिनांक
9-11-96 |

सत्य बंधु राय
सीएसओ
डी ए एम एस 8सी

MINISTRY OF DEFENCE
ARMY BRANCH

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

New Delhi, the 27th September 1997

No. 715, dated 19th August, 1997.—The President is pleased to appoint the following officers of AFHQ Civil Service as Officiating Civilian Staff Officer under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules 1968, for a period of six months from 09-5-97 or till such time the officer retires, whichever is earlier.

Shri A Chandrasekhar
Shri T D Dhariyal
Shri K M P Singh
Shri Dushyant Pal
Kumari Amrita Sharan
Shri Rajesh Saxena
Shri C L Khaitan
Shri Arun Swarup
Shri R Natarajan
Shri Anil Kapoor
Shri Hemant Kumar
Shri, H M S Tanwar

These appointments are made purely as stop gap arrangements and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

(DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE ESTATES)

The President is pleased to appoint Shri RN Ray, Permanent Assistant (Group 'B' Non-Gazetted) as Officiating ACSO (Group 'B' Gazetted) in AFHQ Civil Service in the pay scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- with effect from 01-08-97 (F/N) until further orders.

2. He will be on probation for two years which may be extended at the discretion of the competent authority.

RENU K. RAJU
Dy. Chief Administrative Officer (Admn)

No. 716, dated 04th August, 1997.—The President is pleased to make the following appointment.

REGULAR ARMY

Permanent Commission (Special List)

Date of seniority of JC-204373P Nb/Sub Jagdev Singh Langhe, AD Arty (SL-4130) who was granted Permanent Commission in the Special List on 30 Apr 94 in the rank of Lt along with the course mates of 1993 quota of vacancies on 30 Apr 94 has been changed from 30 Apr 94 to 12 Apr 90 along with course mates of 1989 quota of vacancies without any retrospective benefits of pay and allowances and without any compensation as per provisions contained in MOD order No. 5515/D(AG)/96 dated 30 Dec 96. Accordingly his seniority is fixed below JC-NYA-14287843F Nb/Sub Subal Kumar Kar, Sic (SL-3918L) and above 1968089P Hav Sukhdev Singh Chauhan, AFC (SL-3919N, Lt) of 1989 quota of vacancies whose names appearing in the Gazette No. 459 dated 02 Jun 95 published on 15 Jul 95.

2. The name of the above officer appearing in Gazette Notification 1246 dated 22 May 90 published on 29 Sep 90 is hereby deleted.

P. S. JAMES,
Lt Col. AMS 8B

NAVY BRANCH
NAVAL HEADQUARTERS

No. 717, dated 20th August 1997.—The President is pleased to appoint the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) as Officiating Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service w.e.f. the dates mentioned against their names until further orders:—

Shri K.C. Sharma—23-05-97
Shri GP Singh—16-06-97
Shri DP Singh—01-07-97
Shri GS Rabi—01-07-97
Shri Nand Kishore—01-07-97.

RENU K. RAJU
Dy. Chief Administrative Officer (Admn)

AIR HEADQUARTERS

No. 718, dated 12th August, 1997.—The President is pleased to appoint the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) as Officiating Assistant Civilian Staff Officers (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service with effect from the date mentioned against each till further orders:—

Sl. No., Name and Date of appointment as ACSO

Shri Karnail Singh, 23 May 97.
Shri Manmohan Singh, 28 May 97.
Shri TR Sharma, 28 May 97.
Shri Jagan Nath, 03 Jun 97.

2. The above mentioned appointments are subject to modifications as may be necessary in the implementation of CAT (PB) judgement dated 20-11-92 in TA No. 356/85 in CW No. 3/78 (MG Bansal & Ors Vs UOI & Ors) and other related cases pending before the courts. These appointments are also subject to the outcome of the OA No. 521/1994 filed by Shekhar Prasad & Ors Vs UOI & Ors in CAT (PB) and OA No. 2559/94 (TR Tripathi & Ors Vs UOI & Ors).

RENU K. RAJU,
Dy. Chief Administrative Officer (Admn)

ARMY BRANCH

No. 719, dated 14th August, 1997.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Surg RADM to be Surg VADM

JC Sharma (MR-1480) AMC/PC, 27-03-97 (Notional Seniority without effect on his pay and pension from 01-05-97).

Major to be Lt Col

MOJC

M Bhagat (MR-04273A), AMC, 08 December 1995, 99.
AB Khare (MR-04272X) AMC, 08 December 1995, 106.
RG Podival (MR-04258L) AMC, 08 December 1995, 99.
TK Som (MR-05351Y) AMC, 08 December 1995, 103.
UK Sharma (MR-04262N) AMC, 08 December 1995, 104.
AS Kashyap (MR-04257H) AMC, 08 December 1995, 103.
RKS Yadav (MR-04275L) AMC, 08 December 1995, 99.
S Rajagopalan (MR-4269X) AMC, 08 December 1995, 99.
RK Sharma (MR-04277W) AMC, 08 December 1995, 99.
VS Bisht (MR-05354M) AMC, 22 December 1995, 104.
P Arunachalam (MR-4958Y) AMC, 08 December 1995, 107.

MOJC

R Sood (MR-04256A) AMC, 08 December 1995, 103.
 S Pahwa (MR-04402F) AMC, 08 December 1995, 99.
 C Arunachalam (MR-04264Y) AMC, 08 December 1995,
 99.
 S Tirumalai (MR-04283X) AMC, 08 December 1995, 99.
 SP Singh (MR-05824M) AMC, 20 December 1995, 113.

N. B. AMRESH
 Air Vice Marshal
 Adtl DGAFMS

No. 720, dated 19th August, 1997.—The President is pleased to make the following promotions under AI 37/78 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Captain to be Major

Sudeep Roy (DR-10444X), 28-5-97.

J. L. SHARMA
 Brig. Dy DG DS

No. 721, dated 27th Aug 1997.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Maj to be Substantive Lt Col by selection

MM Singh IC-33616 Arty, 30 Jun 1995.
 PK Roy IC-33644 Sigs, 30 Jun 1995.
 PS Dhillon IC-33776 Inf, 30 Jun 1995.
 P Tal IC-33863 AOC, 30 Jun 1995.
 BN Somanna IC-30717 Inf, 30 Jun 1995.
 CK Kadian IC-30765 Inf, 30 Jun 1995.
 SS Barde IC-30857 Arty, 30 Jun 1995.
 LS Nandan IC-30874 Inf, 30 Jun 1995.
 B Singh IC-30875 EME, 30 Jun 1995.
 KK Bora IC-30877 Inf, 30 Jun 1995.
 N Marwaha IC-30907 Inf, 30 Jun 1995.
 SM Parulkar IC-34303 Sigs, 30 Jun 1995.
 RS Verma IC-30916 Arty, 30 Jun 1995.
 HS Dhillon IC-33682 Inf, 30 Jun 1995.
 H Singh IC-33683 ASC, 30 Jun 1995.
 JS Ahluwalia IC-33684 AC, 30 Jun 1995.
 T Singh IC-33685 Inf, 30 Jun 1995.
 R Singh IC-33690 Inf, 30 Jun 1995.
 BS Dhillon IC-33692 AC, 30 Jun 1995.
 HA Siddiqui IC-33695 Inf, 30 Jun 1995.
 AK Pathania IC-33696 Adarty, 30 Jun 1995.
 ID Gaur IC-33697 Inf, 30 Jun 1995.
 S Prashad IC-33702 Inf, 30 Jun 1995.
 KK Chopra IC-33703 Inf, 30 Jun 1995.
 JN Yadav IC-33704 Ararty, 30 Jun 1995.
 GS Pathania IC-33705 Inf, 30 Jun 1995.

4—254GI/97.

AK Sinha IC-33709 Adarty, 30 Jun 1995.
 K Jayaraman IC-33710 AOC, 30 Jun 1995.
 P Sharma IC-33715 Engrs, 30 Jun 1995.
 VP Singh IC-33721 Sigs, 30 Jun 1995.
 SK Sharma IC-33722 EME, 30 Jun 1995.
 S Kumar IC-33724 Inf, 30 Jun 1995.
 K Singh IC-33728 AOC, 30 Jun 1995.
 MD Alexander IC-33730 EME, 30 Jun 1995.
 R Gurung IC-33731 Adarty, 30 Jun 1995.
 M Singh IC-33732 AOC, 30 Jun 1995.
 AS Grewal IC-33734 Inf, 30 Jun 1995.
 SK Mehta IC-33736 Adarty, 30 Jun 1995.
 S Singh IC-33741 Inf, 30 Jun 1995.
 RP Singh IC-33747 Inf, 30 Jun 1995.
 RK Parmar IC-33749 ASC, 30 Jun 1995.
 DS Khara IC-33752 Inf, 30 Jun 1995.
 APC D'Souza IC-33762 Inf, 30 Jun 1995.
 PC Mangain IC-33764 AOC, 30 Jun 1995.
 SL Kapoor IC-33771 Sigs, 30 Jun 1995.
 CNM Nair IC-33772 Engrs, 30 Jun 1995.
 JS Johar IC-33773 EME, 30 Jun 1995.
 P Ramachandran IC-33774 Adarty, 30 Jun 1995.
 MS Bisht IC-33775 Engrs, 30 Jun 1995.
 KS Rana IC-33777 Inf, 30 Jun 1995.
 T Lal IC-33780 ASC, 30 Jun 1995.
 RK Varier IC-33787 Adarty, 30 Jun 1995.
 RR Gadkary IC-33793 Inf, 30 Jun 1995.
 RS Sambial IC-33803 Inf, 30 Jun 1995.
 NM Minocha IC-33808 AOC, 30 Jun 1995.
 HN Kaushal IC-33809 Arty, 30 Jun 1995.
 DN Yadav IC-33810 Arty, 30 Jun 1995.
 P Singh IC-33815 Adarty, 30 Jun 1995.

ANIL PANDEY
 Maj
 DAMS 8A

No. 722, dated 22nd Aug 1997.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Capt to be Major

IC No., Name & Arm

43653 SM Kumar, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43655 K Vinod Kumar, Sigs, 14 Jun 1997.
 43657 PD Naidu, Engrs, 14 Jun 1997.
 43658 Hari Singh, Engrs, 14 Jun 1997.
 43659 S Kumar, EME, 14 Jun 1997.
 43660 S Babbar, AC, 14 Jun 1997.
 43661 BR Pillal, EME, 14 Jun 1997.

- 43662 S Munj, AC, 14 Jun 1997.
 43663 N Dwivedi, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43664 AK Soni, Engrs, 14 Jun 1997.
 43665 Suhel Singh, AC, 14 Jun 1997.
 43666 Balbir Singh, AC, 14 Jun 1997.
 43667 KS Brar, AC, 14 Jun 1997.
 43668 Sunil Kumar NV, Inf, 14 Jun 1997.
 43669 Shiv Pal Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43670 Amarjot Singh, AC, 14 Jun 1997.
 43671 RK Chhikara, Inf, 14 Jun 1997.
 43672 SS Varma, AOC, 14 Jun 1997.
 43673 Gurjap Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43674 Tejbir Singh, Arty, 14 Jun 1997.
 43676 SR Dhaga, Inf, 14 Jun 1997.
 43678 HP Sood, Arty, 14 Jun 1997.
 43679 GPS Sisodiya, Inf, 14 Jun 1997.
 43680 R Kapoor, Arty, 14 Jun 1997.
 43681 A Karmakar, Inf, 14 Jun 1997.
 43682 AK Samantara, Inf, 14 Jun 1997.
 43683 N Kumar, Arty, 14 Jun 1997.
 43684 JB Chaudhari, Inf, 14 Jun 1997.
 43687 Vivek Sharma, Inf, 14 Jun 1997.
 43688 Kalyan Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43689 PS Bajwa, Inf, 14 Jun 1997.
 43690 HS Dhodi, AC, 14 Jun 1997.
 43691 VB Bose, ASC, 14 Jun 1997.
 43692 Sushil Rana, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43693 Ravinder Sg., AC, 14 Jun 1997.
 43694 S Choudhary, Inf, 14 Jun 1997.
 43696 Sarabjit Sg., AOC, 14 Jun 1997.
 43697 DB Khattri, Inf, 14 Jun 1997.
 43698 S Singh, Arty, 14 Jun 1997.
 43699 GP Singh, Arty, 14 Jun 1997.
 43701 MS Sharma, Arty, 14 Jun 1997.
 43702 P Rāhul, AD Arty, 14 Jun 1997.
 43703 RK Mathur, Arty, 14 Jun 1997.
 43704 SQ Ahmed Arty, 14 Jun 1997.
 43707 AK Majumdar, Arty, 14 Jun 1997.
 43708 PR Patnaik, Inf, 14 Jun 1997.
 43709 BS Sandhu, Engrs, 14 Jun 1997.
 43710 TK Aich, Inf, 14 Jun 1997.
 43711 D Malhotra, Sigs, 14 Jun 1997.
 43714 JM George, Arty, 14 Jun 1997.
 43715 PK Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43717 M Sharma, Engrs, 14 Jun 1997.
 43718 DS Yadav, Inf, 14 Jun 1997.
 43720 A Tripathi, AC, 14 Jun 1997.
 43722 DK Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43723 HK Pant, ASC, 14 Jun 1997.
 43724 SK Chug, Arty, 14 Jun 1997.
 43725 MK Katiyar, Inf, 14 Jun 1997.
 43726 Samarjit, Inf, 14 Jun 1997.
 43727 BS Negi, AOC, 14 Jun 1997.
 43728 RB Biradar, Engrs, 14 Jun 1997.
 43729 Rajeev Saksena, Inf, 14 Jun 1997.
 43730 Vikrant Nayar, AC, 14 Jun 1997.
 43731 Sandeep Pandey, Inf, 14 Jun 1997.
 43733 AA Pol, Inf, 14 Jun 1997.
 43734 Y Sehgal, Engrs, 14 Jun 1997.
 43735 JC Talukdar, Arty, 14 Jun 1997.
 43736 DK Nain, Arty, 14 Jun 1997.
 43737 Rajeev Thapar, Inf, 14 Jun 1997.
 43738 S Parthasarathy, Sigs, 14 Jun 1997.
 43739 R Srivastava, Inf, 14 Jun 1997.
 43740 D Chandola Sigs, 14 Jun 1997.
 43741 Y Arya, EM, 14 Jun 1997.
 43743 RS Rati, Inf, 14 Jun 1997.
 43745 Govind Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43746 Adosh Kumar, Arty, 14 Jun 1997.
 43747 SS Dhillon, AC, 14 Jun 1997.
 43748 YS Redhu, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43749 MS Natu, ASC, 14 Jun 1997.
 43750 GPS Virk, Inf, 14 Jun 1997.
 43751 BS Aujla, Inf, 14 Jun 1997.
 43754 RS Yadav, Inf, 14 Jun 1997.
 43755 Ashwinin CB Sg., Engrs, 14 Jun 1997.
 43756 S Langeh, Inf, 14 Jun 1997.
 43757 M Chacko, Arty, 14 Jun 1997.
 43758 MC Thomas, Inf, 14 Jun 1997.
 43759 SB Kasar, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43760 G Singh, Engrs, 14 Jun 1997.
 43761 SS Sidhu, AC, 14 Jun 1997.
 43762 N Bharti, Inf, 14 Jun 1997.
 43763 SP Tripathi, Arty, 14 Jun 1997.
 43765 N Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43766 Ashutosh Kale, Inf, 14 Jun 1997.
 43767 R Srivastava, Arty, 14 Jun 1997.
 43768 M Rastogi, Inf, 14 Jun 1997.
 43769 SK Saharan, Arty, 14 Jun 1997.
 43770 S Bhushan, Inf, 14 Jun 1997.
 43771 S Mohan, AD Arty, 14 Jun 1997.
 43772 Ominder Sg., Inf, 14 Jun 1997.
 43774 M D'souza, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43775 PN Mathur, Sigs, 14 Jun 1997.

- 43776 AK Rohilla, Inf, 14 Jun 1997.
43777 PP Dak, Arty, 14 Jun 1997.
43779 Alok Jain, Arty, 14 Jun 1997.
43780 D Banerjee, M/Inf, 14 Jun 1997.
43782 RP Sharma, Inf, 14 Jun 1997.
43783 KS Sharawat, Inf, 14 Jun 1997.
43784 Digvijay Sg., M/Inf, 14 Jun 1997.
43785 AK Kalia, Sigs, 14 Jun 1997.
43786 RA Khan, AC, 14 Jun 1997.
43787 PV Janardhanan, Engrs, 14 Jun 1997.
43788 S Jaitly, AOC, 14 Jun 1997.
43789 V Muthana, Inf, 14 Jun 1997.
43790 S Singhal, Arty, 14 Jun 1997.
43791 MU Reddy, Sigs, 14 Jun 1997.
43793 JK Chaurasia, Inf, 14 Jun 1997.
43794 S Nand, Inf, 14 Jun 1997.
43795 A Murugesan, Inf, 14 Jun 1997.
43796 S Gupta, Arty, 14 Jun 1997.
43797 Sunil Kumar VS, Arty, 14 Jun 1997.
43798 BS Mavi, AOC, 14 Jun 1997.
43799 VK Patpatia, Inf, 14 Jun 1997.
43801 S Bakshi, EME, 14 Jun 1997.
43802 RP Singh, M/Inf, 14 Jun 1997.
43803 SS Prabhu, Arty, 14 Jun 1997.
43804 B Sharma, ASC, 14 Jun 1997.
43805 Atul Kochhar, Inf, 14 Jun 1997.
43806 R Ranjan, Arty, 14 Jun 1997.
43807 Jayadev K, Sigs, 14 Jun 1997.
43810 VD Arya, Arty, 14 Jun 1997.
43811 B Dutt, Inf, 14 Jun 1997.
43812 PP Talwar, AD Arty, 14 Jun 1997.
43813 KBS Bhimraj, Inf, 14 Jun 1997.
43814 V Subramani, Engrs, 14 Jun 1997.
43815 C Sharma, AOC, 14 Jun 1997.
43816 KS Kataria, ASC, 14 Jun 1997.
43817 NG Railkar Sigs, 14 Jun 1997.
43819 AP Kumar, Inf, 14 Jun 1997.
43820 GRS Reddy, Inf, 14 Jun 1997.
43821 NS Mangat, ASC, 14 Jun 1997.
43822 NR Babu, Inf, 14 Jun 1997.
43823 S Singh, Inf, 14 Jun 1997.
43824 HS Aulakh, ASC, 14 Jun 1997.
43826 R Anil Kumar, Arty, 14 Jun 1997.
43827 SS Narayanan, Engrs, 14 Jun 1997.
43828 A Kumar, Inf, 14 Jun 1997.
43829 RS Hooda, Inf, 14 Jun 1997.
43830 B Sebastian, Inf, 14 Jun 1997.
43831 VN Khadilkar, Sigs, 14 Jun 1997.
43832 S Singh, M/Inf, 14 Jun 1997.
43833 SK Kahli, Arty, 14 Jun 1997.
43835 I Chatterjee, Inf, 14 Jun 1997.
43837 R Kumar, Sigs, 14 Jun 1997.
43838 R Passi, ASC, 14 Jun 1997.
43839 A Sharma, AD Arty, 14 Jun 1997.
43840 RB Patil, AOC, 14 Jun 1997.
43841 KN Gautam, Inf, 14 Jun 1997.
43842 MK Das, Inf, 14 Jun 1997.
43843 A Yadav, Inf, 14 Jun 1997.
43844 BS Nahal, Arty, 14 Jun 1997.
43846 A Kumar, Inf, 14 Jun 1997.
43847 P Jadeja, Engrs, 14 Jun 1997.
43849 JC Sharma, Arty, 14 Jun 1997.
43850 R Kumar, AOC, 14 Jun 1997.
43851 V Singh, AC, 14 Jun 1997.
43852 RV Kumar, Inf, 14 Jun 1997.
43854 AK Sardhana, EME, 14 Jun 1997.
43855 SG Sarpotdar, M/Inf, 14 Jun 1997.
43856 M Gnanasekaran, Arty, 14 Jun 1997.
43857 NK Janglay, Arty, 14 Jun 1997.
43858 M Kumar, Sigs, 14 Jun 1997.
43860 MB Kadam, Int, 14 Jun 1997.
43861 PK Gangwani, Arty, 14 Jun 1997.
43862 A Ahooja, Eng, 14 Jun 1997.
43863 S Pant, AD Arty, 14 Jun 1997.
43865 PM Rao, Arty, 14 Jun 1997.
43867 AM Gade, Sigs, 14 Jun 1997.
43868 B Das, Inf, 14 Jun 1997.
43869 P Kaul, Arty, 14 Jun 1997.
43870 SC Sharma, Sigs, 14 Jun 1997.
43872 P Bhatia, Inf, 14 Jun 1997.
43873 RPK Manduva, Arty, 14 Jun 1997.
43875 V Mehta, Inf, 14 Jun 1997.
43876 NR Manjeet, AC, 14 Jun 1997.
43877 R Dewan, Inf, 14 Jun 1997.
43878 U Sundaram, Inf, 14 Jun 1997.
43879 SK Ahlawat, Arty, 14 Jun 1997.
43880 S Chaturvedi, ASC, 14 Jun 1997.
43881 SC Gupta, Arty, 14 Jun 1997.
43882 S Bhattacharya, Eng, 14 Jun 1997.

- 43883 S Sharma, ASC, 14 Jun 1997.
 43884 SR Sg, Inf, 14 Jun 1997.
 43885 NK Sg, ASC, 14 Jun 1997.
 43886 S Kumar, Arty, 14 Jun 1997.
 43890 KS Uppal, AOC, 14 Jun 1997.
 43891 P Mehrotra, Inf, 14 Jun 1997.
 43892 NPS Bana, Eng, 14 Jun 1997.
 43893 N Diwanji, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43895 VSVK Nair, Arty, 14 Jun 1997.
 43897 S Sud, Inf, 14 Jun 1997.
 43898 RS Hans, EME, 14 Jun 1997.
 43899 HM Maheshwari, Inf, 14 Jun 1997.
 43900 AS Rathod, Eng, 14 Jun 1997.
 43901 SK Sreelal, Arty, 14 Jun 1997.
 43902 S Kumar, Arty, 14 Jun 1997.
 43903 P Mukherjee, Inf, 14 Jun 1997.
 43904 AP Singh, AOC, 14 Jun 1997.
 43906 RK Sharma, Arty, 14 Jun 1997.
 43907 KK Sharma, Sigs, 14 Jun 1997.
 43908 SP Vishwanath, AOC, 14 Jun 1997.
 43909 E Singh, ASC, 14 Jun 1997.
 43910 Aseem Joshi, Inf, 14 Jun 1997.
 43912 S Tandon, ASC, 14 Jun 1997.
 43914 RK Mahna, Inf, 14 Jun 1997.
 43915 AK Patra, Arty, 14 Jun 1997.
 43916 RK Talwar, AOC, 14 Jun 1997.
 43917 RSS Shikoh, Arty, 14 Jun 1997.
 43918 R Mandal, Inf, 14 Jun 1997.
 43919 B Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43920 D Srivastava, Arty, 14 Jun 1997.
 43921 TK Raj, Inf, 14 Jun 1997.
 43923 R Kapur, Inf, 14 Jun 1997.
 43925 R Kothari, Inf, 14 Jun 1997.
 43926 AS Mill, ASC, 14 Jun 1997.
 43927 R Kumar, Inf, 14 Jun 1997.
 43928 S Bhandari, Arty, 14 Jun 1997.
 43932 B Kumar, Arty, 14 Jun 1997.
 43933 RS Kushwaha, Sigs, 14 Jun 1997.
 43934 AKapoor, Arty, 14 Jun 1997.
 43935 A Pandey, Inf, 14 Jun 1997.
 43937 VK Suhathan, Inf, 14 Jun 1997.
 43938 R Wadhawan, Inf, 14 Jun 1997.
 43939 SB Herlekar, Engrs, 14 Jun 1997.
 43940 D Agarwal, AD Arty, 14 Jun 1997.
 43941 RS Locham, ASC, 14 Jun 1997.
 43942 A Singh, AC, 14 Jun 1997.
 43943 S Khattri, Inf, 14 Jun 1997.
 43944 VK Bharee, Arty, 14 Jun 1997.
 43945 R Chauhan, AOC, 14 Jun 1997.
 43946 S Das, EME, 14 Jun 1997.
 43947 T Banerjee, Sigs, 14 Jun 1997.
 43948 D Choudhary, Inf, 14 Jun 1997.
 43949 JS Bakshi, AC, 14 Jun 1997.
 43950 SB Singh, Sigs, 14 Jun 1997.
 43951 A Munshi, Engrs, 14 Jun 1997.
 43952 S Ghosh, Inf, 14 Jun 1997.
 43953 Inderjeet Sg, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43954 SK Sangwan, Inf, 14 Jun 1997.
 43958 B Singh, M/Inf, 14 Jun 1997.
 43959 SV Singh, Inf, 14 Jun 1997.
 43960 MV Prabhu, Arty, 14 Jun 1997.
 43962 KNK Panicker, Inf, 14 Jun 1997.
 43964 P Agnihotri, Eng, 14 Jun 1997.
 43968 B Kumar, Inf, 14 Jun 1997.
 43969 RK Juneja, Sigs, 14 Jun 1997.
 43970 RN Singh, AC, 14 Jun 1997.
 43971 R Sharma, Inf, 14 Jun 1997.
 43972 A Sindhwani, AOC, 14 Jun 1997.
 43975 S Mehrotra, Arty, 14 Jun 1997.
 43976 SK Sinha, Arty, 14 Jun 1997.
 43978 AN Tivary, Arty, 14 Jun 1997.
 43981 S Kapur, Inf, 14 Jun 1997.
 43987 R Verma, Inf, 14 Jun 1997.
 43991 S Sivaraman, Arty, 14 Jun 1997.
 43993 RK Vanturu, ASC, 14 Jun 1997.
 44014 SV Sg, AEC, 14 Jun 1997.
 44020 BS Prasad, AEC, 14 Jun 1997.
 47938 RK Sharma, Engrs, 15 Jun 1997.
 47939 S Gangwar, EME, 15 Jun 1997.
 47940 SMH Ahmed, Engrs, 15 Jun 1997.
 47941 RK Jindal, Engrs, 15 June 1997.
 47942 NGK Prasad, EME, 15 Jun 1997.
 47943 SV Bajpai, Engr, 15 Jun 1997.
 47945 SP Singh, EME, 15 Jun 1997.
 47946 AK Chaubey, Engrs, 15 Jun 1997.

47947 GS Jaswal, Engrs, 15 Jun 1997.
 47948 S Singh, Engrs, 15 Jun 1997.
 47949 VSK Reddy, Engrs, 15 Jun 1997.
 47951 VM Vanan, Sigs, 15 Jun 1997.
 47952 P Krishna, Sigs, 15 Jun 1997.
 47953 SS Kumar, Engrs, 15 Jun 1997.
 47954 Amrit Lal, Sigs, 15 Jun 1997.
 47956 PK Shrivastava, Eng, 15 Jun 1997.
 47960 D Mohan, Engrs, 15 Jun 1997.
 47961 SK Deo, Engrs, 15 Jun 1997.
 47962 PGK Mishra, Eng, 15 Jun 1997.
 47964 DB Mehta, Engrs, 15 Jun 1997.
 47966 JK Chawla, Sigs, 15 Jun 1997.
 47967 RV Rao, Engrs, 15 Jun 1997.
 47968 S Chadha, EME, 15 Jun 1997.
 47970 R Singh, Engrs, 15 Jun 1997.
 47972 S Kumar, Engrs, 15 Jun 1997.
 47973 CM Dua, Engrs, 15 Jun 1997.
 47975 IK Khurana, Engrs, 15 Jun 1997.
 47976 N Kumar, Sigs, 15 Jun 1997.
 47978 VS Venugopal, Eng, 15 Jun 1997.
 47979 PS Rana, EME, 15 Jun 1997.
 47980 OP Singh, Engrs, 15 Jun 1997.
 47981 UK Sarma, EME, 15 Jun 1997.
 47982 A Kinra, EME, 15 Jun 1997.
 47984 S Kumar, Engrs, 15 Jun 1997.
 47985 AT Mathew, Engrs, 15 Jun 1997.
 47987 SK Tomer, Engrs, 15 Jun 1997.
 47988 BB Srivastava, Sigs, 15 Jun 1997.
 47992 SK Gigoo, EME, 15 Jun 1997.
 47995 PK Shrivastava, EME, 15 Jun 1997.
 47996 A Mishra, Eng, 15 Jun 1997.
 47997 AK Antony, EME, 15 Jun 1997.
 47998 AK Aggarwal, Eng, 15 Jun 1997.
 47999 S Bhalla, EME, 15 Jun 1997.
 48000 UK Behra, Sigs, 15 Jun 1997.
 48002 A Pathak, EME, 15 Jun 1997.
 48003 AK Gautam, Eng, 15 Jun 1997.
 48004 R Jaya Prasad, Eng, 15 Jun 1997.
 48008 RB Singh, Eng, 15 Jun 1997.
 48009 Girdhar, Engrs, 15 Jun 1997.
 48011 S Sihorkar, Eng, 15 Jun 1997.

48012 V Sundarnath, Sigs, 15 Jun 1997.
 48015 T Venegopal, Eng, 15 Jun 1997.
 48016 DT Deore, Eng, 15 Jun 1997.
 48020 C Thennarasu, Eng, 15 Jun 1997.
 48021 B Patil, Eng, 15 Jun 1997.
 48022 SK Katara, Engrs, 15 Jun 1997.
 48026 VM Swamy, Sigs, 15 Jun 1997.
 48027 AK Dass, EME, 15 Jun 1997.
 48029 VGK Kumar, Engrs, 15 Jun 1997.
 48030 RS Kumar, Engrs, 15 Jun 1997.
 48032 VK Dubey, Engrs, 15 Jun 1997.
 48033 MK Jain, Engrs, 15 Jun 1997.
 48034 N Bhutant, EME, 15 Jun 1997.
 48036 S Tandon, EME, 15 Jun 1997.
 4 037 KV Prasad, Engrs, 15 Jun 1997.
 48038 J Prasad, Engrs, 15 Jun 1997.
 48041 DK Sharma, Engrs, 15 Jun 1997.
 48042 R Sachdeva, Engrs, 15 Jun 1997.

LT to be CAPT.

IC-45016 MM Uniyal, Inf—26-4-88
 IC-42455 SP Yadav, ASC—15-12-89
 IC-43652 P. Kumar, AEC—25-4-94
 IC-48757 GJ Devadass, ASC—24-4-95
 IC-46608 Amit Sharma, Inf—08-11-95
 IC-46704 Gautam Segan, Arty, IC-46790
 DN Sharma, Inf, IC-46817 A Kandari, Inf—
 23-4-96.
 IC-46881 AS Chauhan, Arty—07-11-96.
 IC-46914 RK Chemmala, Inf, IC-46921 V. Pra-
 bhakar, AOC—22-4-97.

IC No. Name & Arm

51114 AS Thakur, Engrs, 13 Jun 97.
 51115 Mukesh Kumar, Engrs, 13 Jun 97.
 51116 R Mehta, AC, 13 Jun 97.
 51117 SP Singh, Engrs, 13 Jun 97.
 51118 Vishal Singh, AC, 13 Jun 97.
 51119 SD Fadare, Sigs, 13 Jun 97.
 51120 Devaraju, Sigs, 13 Jun 97.
 51121 VS Jaswal, M/Inf, 13 Jun 97.
 51122 NJ Singh, Inf, 13 Jun 97.
 51123 N Dahiya, Inf, 13 Jun 97.
 51124 SSH Rizvi, Inf, 13 Jun 97.
 51125 S Sobti, AD Arty, 13 Jun 97.

IC No. Name & Arm	IC No. Name & Arm
51126 APS Hansi, Engrs, 13 Jun 97	51173 RN Mutalik, Inf, 13 Jun 97
51127 HK Singh, Inf, 13 Jun 97	51174 DP Singh, Arty, 13 Jun 97
51128 V Singh, Arty, 13 Jun 97	51175 Jiten Ale, ASC, 13 Jun, 97
51129 Rajat Chawla, Sigs, 13 Jun 97	51176 S Sati, Inf, 13 Jun 97
51130 M Bhatnagar, Inf, 13 Jun 97	51177 G Oberoi, AC, 13 Jun 97
51131 M Pande, Inf, 13 Jun 97	51178 PY John, Arty, 13 Jun 97
51132 P Awasthi, Inf, 13 Jun 97	51179 A Agarwal, AS Arty, 13 Jun 97
51133 V Upadhyay, Engrs, 13 Jun 97	51181 I Rana, ASC, 13 Jun 97
51134 C Prabhu, AOC, 13 Jun 97	51182 DC Dubey, Inf, 13 Jun 97
51135 Anil Kumar, Inf, 13 Jun 97	51183 S Dwivedi, Inf, 13 Jun 97
51136 SP Murlidhar, AD Arty, 13 Jun 97	51184 SS Panghal, Engrs, 13 Jun 97
51137 V Gera, Arty, 13 Jun 97	51185 Suresh Kumar, Sigs, 13 Jun 97
51138 Rajesh Mehta, EME, 13 Jun 97	51186 MS Sabarwal, Inf, 13 Jun 97
51139 Vijay Kala, Inf, 13 Jun 97	51187 PS Bindra, EME, 13 Jun 97
51140 D Kumar, Inf, 13 Jun 97	51190 R Chauhan, Arty, 13 Jun 97
51141 Ajay Bhushan, EME, 13 Jun 97	51191 G Manoj, EME, 13 Jun 97
51142 M Gupta, Inf, 13 Jun 97	51193 MDS Duggal, Arty, 13 Jun 97
51143 A Sharma, Engrs, 13 Jun 97	51195 NP Singh, Sigs, 13 Jun 97
51144 R Gupta, Arty, 13 Jun 97	51197 SS Yadav, AOC, 13 Jun 97
51146 S Yadav, ASC, 13 Jun 97	51198 BCC Fernandez, Inf, 13 Jun 97
51147 AK Yadav, AOC, 13 Jun 97	51199 Basant Singh, Inf, 13 Jun 97
51148 R Singh, AD Arty, 13 Jun 97	51200 P Mair, Sigs, 13 Jun 97
51149 V Malhotra, Inf, 13 Jun 97	51201 AK Pateria, Inf, 13 Jun 97
51150 AA Sathe, Arty, 13 Jun 97	51202 B Khanna, AC, 13 Jun 97
51151 A Johar, Inf, 13 Jun 97	51205 DM Anand, Sigs, 13 Jun 97
51154 B Huria, ASC, 13 Jun 97	51206 Sumeet Sharma, AC, 13 Jun 97
51156 DP Singh, Arty, 13 Jun 97	51207 Nischal Sood, AD Arty, 13 Jun 97
51157 Ravinder Singh, Inf, 13 Jun 97	51208 S Jaggi, ASC 13 Jun 97
51158 S Sindhu, EME, 13 Jun 97	51209 AP Arul, Sigs, 13 Jun 97
51159 P Bajpai, EME, 13 Jun 97	51210 N Gupta, Inf, 13 Jun 97
51160 SK Sheoran, Inf, 13 Jun 97	51211 VS Deshpande, Inf, 13 Jun 97
51161 K Loganathan, Inf, 13 Jun 97	51213 SS Kulkarni, Inf, 13 Jun 97
51162 AS Kahlon, Inf, 13 Jun 97	51214 AK Ahuja, Inf, 13 Jun 97
51163 A Mishra, Arty, 13 Jun 97	51216 TVP Kumar, Inf, 13 Jun 97
51164 A Mahindro, M/Inf, 13 Jun 97	51217 Manjit Sinb, Inf, 13 Jun 97
51165 V Prabhakar, AOC, 13 Jun 97	51218 P Singh, Arty, 13 Jun 97
51166 DS Dhaka, ASC, 13 Jun 97	51219 Ashok Kumar, Arty, 13 Jun 97
51167 NJ Bhattacharji, ADA Arty, 13 Jun 97	51220 R Gopalakrishnan, Inf, 13 Jun 97
51168 V Santhosh, Inf, 13 Jun 97	51221 AniW Pandit, AC, 13 Jun 97
51169 Sumit Mehta, AC, 13 Jun 97	51223 Ranjan Gupta, Arty, 13 Jun 97
51171 IP Mishra, AOC, 13 Jun 97	51224 DR Rout, Int, 13 Jun 97

IC No.	Name & Arm	IC No.	Name & Arm
51226	SC Choudhary, Inf, 13 Jun 97	51293	Sandeep Sharma, EME, 13 Jun 97
51227	NC Bansal, Arty, 13 Jun 97	51294	RS Nandal, Inf, 13 Jun 97
51230	RJV Ohol, Arty, 13 Jun 97	51297	AK Sharma, Arty, 13 Jun 97
51231	A Bamzai, EME, 13 Jun 97	51299	Somnath Gupta, Arty, 13 Jun 97
51232	A Kumar, Inf, 13 Jun 97	51301	JK Malik, Inf, 13 Jun 97
51233	S Srivastava, Inf, 13 Jun 97	51302	A Tahlan, Inf, 13 Jun 97
51235	SS Chandel, Inf, 13 Jun 97	51303	Sumit Pant, Inf, 13 Jun 97
51236	Gurbir Singh, Arty, 13 Jun 97	51305	Ashok Manocha, AOC, 13 Jun 97
51237	Abdul Hameed, Inf, 13 Jun 97	51306	R Bhargava, EME, 13 Jun 97
51238	DB Gurung, Inf, 13 Jun 97	51307	RE Menon, Sigs, 13 Jun 97
51241	NP Venkatesvaran, Arty, 13 Jun 97	51309	S Bhardwaj, Arty, 13 Jun 97
51244	N Bisht, Inf, 13 Jun 97	51310	HS Bisht, Sigs, 13 Jun 97
51245	BS Rajkumar, ASC, 13 Jun 97	51312	UK Rao, ASC, 13 Jun 97
51246	Rahul Sharma, Arty, 13 Jun 97	51315	SB Rana, Inf, 13 Jun 97
51247	M Bakshi, AOC, 13 Jun 97	51317	A Choudhary, Inf, 13 Jun 97
51248	M Kukar, Inf, 13 Jun 97	51324	S Pathak, ASC, 13 Jun 97
51249	V Pillai, Inf, 13 Jun 97	51325	Neil John, AC, 13 Jun 97
51250	Ashim Kalra, EME, 13 Jun 97	51326	BKS Khoisnam, Inf, 13 Jun 97
51251	SK Mishra, AOC, 13 Jun 97	51327	R Dutta, Arty, 13 Jun 97
51254	V Dwivedi, AOC, 13 Jun 97	51330	R Singh, M/Inf, 13 Jun 97
51256	Jaiveer Singh, ASC, 13 Jun 97	51331	APS Sandhu, ASC, 13 Jun 97
51257	HK Sethi, AC, 13 Jun 97	51332	Gautam Das, AD Arty, 13 Jun 97
51259	IS Mann, ASC, 13 Jun 97	51333	Om Prakash, Inf, 13 Jun 97
51260	D Mehta, 13 Jun 97	51337	Bhasker Gupta, Arty, 13 Jun 97
51261	SS Kartikeya, Inf, 13 Jun 97	51340	R Bhardwaj, Inf, 13 Jun 97
51267	A Kumar, Inf, 13 Jun 97	51341	A Jose, Inf, 13 Jun 97
51268	R Yadav, AC, 13 Jun 97	51344	MC Rajasegharan, Inf, 13 Jun 97
51270	S Jain, EME, 13 Jun 97	51345	S Mukherjee, Arty, 13 Jun 97
51272	S Chauhan, Inf, 13 Jun 97	51346	S Arora, AC, 13 Jun 97
51274	Joginder Singh, M/Inf, 13 Jun 97	51352	A Pandey, ASC, 13 Jun 97
51275	R Sreekanth, Arty, 13 Jun 97	51353	Vijay Singh, Inf, 13 Jun 97
51276	HS Kalia, Inf, 13 Jun 97	51356	Samir Bhalla, Sigs, 13 Jun 97
51277	Z Bhatnagar, Inf, 13 Jun 97	51357	Ajay Uniyal, Inf, 13 Jun 97
51279	A Parashar, Inf, 13 Jun 97	51361	Manish Basera, AOC, 13 Jun 97
51280	M Mishra, Inf, 13 Jun 97	51362	Veeresh, M/Inf, 13 Jun 97
51281	R Sharma, Inf, 13 Jun 97	51365	Neeraj Sharma, AD Arty, 13 Jun 97
51282	D Mahecha, Inf, 13 Jun 97	51367	K Chakraborty, EME, 13 Jun 97
51283	NS Khera, ASC, 13 Jun 97	51368	G Mathur, Arty, 13 Jun 97
51284	D Chaudhary, EME, 13 Jun 97	51370	JP Sattigiri, Int, 13 Jun 97
51289	LK Aggarwal, Arty, 13 Jun 97	51372	P Mehra, Inf, 13 Jun 97
51291	S Uniyal, Arty, 13 Jun 97	51373	Amal Gautam, AD Arty, 13 Jun 97

IC No. Name & Arm

51374 MS Thosar, Sigs, 13 Jun 97
 51375 J Rawal, Inf, 13 Jun 97
 51376 HS Rathore, Arty, 13 Jun 97
 51778 S Sircar, Engrs, 13 Jun 97
 51381 AJ Singh, AD Arty, 13 Jun 97
 51383 JS Bath, Inf, 13 Jun 97
 51385 A Agarwal, Sigs, 13 Jun 97
 51387 BS Gahlawat, Inf 13 Jun 97,
 51388 A Chaudhari, ASC, 13 Jun 97
 51400 AK Sharma, AEC, 13 Jun 97
 51417 DS Rathore, MF, 13 Jun 97
 51418 PK Sharma, AEC, 13 Jun 97
 51419 SS Thakur, AEC, 13 Jun 97
 51443 R Sharma, AEC, 13 Jun 97
 51466 VK Bhat, AEC, 13 Jun 97
 53066 AS Dhayal, Engrs, 14 Jun 97
 53067 S Sharma, EME, 14 Jun 97
 53070 R Balasubramanian, Engrs, 14 Jun 97
 53074 RS Ahlawat, Engrs, 14 Jun 97
 53075 G Singh, Engrs, 14 Jun 97
 53077 I Ramnathkar, Engrs, 14 Jun 97
 53083 M Pathak, Engrs, 14 Jun 97
 53088 A Dutt, EME, 14 Jun 97
 53090 S Vinod, Sigs, 14 Jun 97
 53091 BRR Kumar, EME, 14 Jun 97
 53098 SK Nayak, EME, 14 Jun 97
 53001 AJ Nareshbhai, EME, 14 Jun 97
 53105 VS Prakash, Engrs, 14 Jun 97
 53107 KSKV Rao, EME, 14 Jun 97
 53108 S Ajitkumar, EME, 14 Jun 97
 IC-50286 VPS Dahiya, Arty, 8 Jun 96
 IC-50326 S Sinha, AOC, 8 Jun 97
 IC-50422 RR Shankar, EME, 8 Jun 97
 IC-50529 V Sundaresh, AD Arty, 8 Jun 97
 IC-50689 Navin Verma, AD Arty, 14 Dec 96
 IC-50712 AK Bali, ASC, 14 Dec 96
 IC-50718 Dalbir Singh, AOC, 14 Dec 96
 IC-50724 SK Singh, Arty, 14 Dec 96
 IC-50726 GD Singh, Inf, 14 Dec 96
 IC-50891 MA Cletus, ASC, 14 Dec 96
 IC-50989 Sanjeev Kumar, AOC, 14 Dec 96
 IC-50995 PV Rao, ASC, 14 Dec 96
 C-51336 V Lakhanpal, Sigs, 13 Jun 97
 IC-53080 S Bhattacharjee, EME, 14 Dec 97

S D Rai
 CSO DAMS 8C

ARMY BRANCH

No. 723, Dated 20 August 97—The President is pleased to make the following promotions :—
 (REGULAR ARMY)

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Nek Ram (JC-180452H)— 03 Oct. 1996/ *Ist Aug 1996

Subedar Balbir Singh (JC-143801K)—09 Sep 1996/
 *Ist Sep 1996

Subedar Thomas TT (JC-143800F)—Ist Sep 1996

Subedar Rajakrishnan (JC-157581W)— 03 Oct 96/*01 Sep 1996

*(Gtd dry seniority wef)

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Amin Chand Neryal (JC-203518H)—
 Ist May 1996

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-193408X)—Ist Jul 1996

Nb Sub Jagbir Singh (JC-225937 A)—Ist Jul 1996

Nb Sub Birudukota Varada Rao (JC-226217L)—
 Ist Aug 1996

Nb Sub Baryam Singh (JC-226853Y), 1st Aug 1996

Nb Sub Mansha Ram, (JC-203545M), 1st Aug 1996

Nb Sub Bhim Singh Verma, (JC-226229A), 1st Aug 1996

Nb Sub Ram Mohan (JC-226461L), 1st Aug 1996

Nb Sub Ranbir Singh (JC-226375A), 1st Aug 1996

Nb Sub Chain Singh (JC-255610W), 1st Aug 1996

Nb Sub Gurmeet Singh (JC-255225M), 1st Aug 1996

Nb Sub Abraham KV (JC-200230Y), 1st Aug 1996

Nb Sub Udey Singh (JC-203558K), 1st Aug 1996

Nb Sub Brahm Dev Rana (JC-203510W), 1st Aug 1996

Nb Sub Chandgi Ram Verma (JC-203887A),
1st Aug 1996.

Nb Sub Abhai Singh (JC-215445N), 1st Aug
1996.

Nb Sub Shankar Devidas Vombase, (JC-209345
M), 1st Aug 1996.

Nb Sub Ram Gopal (JC-221095H), 1st Aug
1996.

Nb Sub Balwinder Singh, (JC-223304N), 1st Aug
1996.

Nb Sub Satish Kumar Singh, (JC-224701Y), 1st
Aug 1996.

Nb Sub Bijay Kumar Chaudhary (JC-223303L),
1st Aug 1996.

Nb Sub Bahadur Singh, (JC-223335N), 1st Aug
1996.

Nb Sub Rattan Singh, (JC-225669F), 1st Aug
1996.

Nb Sub Pradyumna Tripathi, (JC-223608L), 1st
Aug 1996.

Nb Sub Shaik Rahman, (JC-223615F), 1st Aug
1996.

Nb Sub Vijayan K, (JC-225701L), 1st Aug 1996.

Nb Sub V Ramana Reddy, (JC-255423W), 1st
Aug 1996.

Nb Sub Baldev Singh, (JC-255220N), 1st Aug
1996.

Nb Sub Harcharan Singh, (JC-255378W), 1st
Aug 1996.

Nb Sub Basavanneppa Mellihalli, (JC-226872K),
1st Aug 1996.

Nb Sub Mehar Chand Mehta, (JC-210053W),
1st Aug 1996.

Nb Sub Balbir Singh, (JC-220037M), 1st Aug
1996.

Nb Sub Kuttadam Padath Narayanan, (JC-
193396N), 1st Aug 1996.

Nb Sub Ashwani Kumar, (JC-199105Y), 1st Aug
1996.

Nb Sub M Uthaya Shankar, (JC-199117N),
1st Aug 1996.

Nb Sub Gurucharan Singh, (JC-201675W), 1st
Aug 1996.

Nb Sub Rattan Singh, (JC-200254F), 1st Aug
1996.

Nb Sub Gurmit Singh, (JC-203884M), 1st Aug
1996.

Nb Sub Subhash Chand Sharma, (JC-209324W),
1st Aug 1996.

Nb Sub Kunhraman Vadakkeeyil, (JC-221121Y),
1st Aug 1996.

Nb Sub Sumer Singh, (JC-223684X), 1st Aug
1996.

Nb Sub Maghar Singh, (JC-217570W), 1st Aug
1996.

Nb Sub Durg Bahadur Mall, (JC-225544K),
1st Aug 1996.

Nb Sub Suresh Singh Yadav, (JC-223089N),
1st Aug 1996.

Nb Sub Raghbir Singh, (JC-223032K), 1st Aug
1996.

Nb Sub Gajender Singh, (JC-225549H), 1st Aug
1996.

Nb Sub Amrik Singh, (JC-223500Y), 1st Aug
1996.

Nb Sub Chandra Shekher Shukla, (JC-223594W),
1st Aug 1996.

Nb Sub Jadhav Bharat Gopal, (JC-225219K),
1st Aug 1996.

Nb Sub Partap Singh, (JC-225034P), 1st Aug
1996.

Nb Sub Uttam Singh, (JC-225573Y), 1st Aug
1996.

Nb Sub Kanwar Singh, (JC-226071H), 1st Aug
1996.

Nb Sub Inderaj Singh, (JC-255119M), 1st Aug
1996.

Nb Sub Dharm Pal, (JC-203479P), 1st Aug 1996.

Nb Sub Deo Karan Singh Yadav, (JC-226716X),
1st Aug 1996.

Nb Sub Vivek Lal, (JC-226587W), 1st Aug 1996.

Nb Sub Surinder, (JC-226445N), 1st Aug 1996.

Nb Sub Gurdev Singh, (JC-223291F), 1st Aug
1996.

Nb Sub Balwant Singh Yadava, (JC-201710N),
1st Aug 1996.

Nb Sub Bishambhar Ram, (JC-204517M), 1st
Aug 1996.

Nb Sub Hanuwant Singh, (JC-203525Y), 1st Aug,
1996.

Nb Sub Balakrishnan Asary K, (JC-214956P)
1st Aug 1996.

Nb Sub Ajit Singh, (JC-214953X), 1st Aug 1996.

Nb Sub Mahesh Prasad, (JC-221520H), 1st Aug
1996.

Nb Sub Prithvi Chand, (JC-225593M), 1st Aug
1996.

Nb Sub Fateh Singh, (JC-225733N), 1st Aug
1996.

Nb Sub Swarn Singh, (JC-226502K), 1st Aug 1996.

Nb Sub Amin Chand Rana, (JC-226841K), 1st Aug 1996.

Nb Sub Bhadra Deo, (JC-226524H), 1st Aug 1996.

Nb Sub Karan Singh, (JC-226453M), 1st Aug 1996.

Nb Sub Satya Pal Singh, (JC-255159P), 1st Aug 1996.

Nb Sub Virender Singh, (JC-255581M), 1st Aug 1996.

Nb Sub Sonbir Singh, (JC-255587N), 1st Aug 1996.

Nb Sub Bhanwar Singh, (JC-225225X), 1st Aug 1996.

Nb Sub Mohanram N., (JC-193395L), 1st Aug 1996.

Nb Sub Jaswant Singh, (JC-225212A), 1st Aug 1996.

Nb Sub Koshiy KC, (JC-226829H), 1st Aug 1996.

Nb Sub Kartar Singh, (JC-224708H), 1st Aug 1996.

Nb Sub Hari Singh, (JC-225685Y), 1st Aug 1996.

Nb Sub Rajinder Singh, (JC-226680M), 1st Aug 1996.

Nb Sub Gurmit Singh, (JC-226758M), 1st Aug 1996.

Nb Sub Mahadeo Dharmu Salunkhe, (JC-225947 K), 1st Aug 1996.

Nb Sub Major Singh, (JC-255508N), 1st Aug 1996.

Nb Sub Sankar Mitra, (JC-255226P), 1st Aug 1996.

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

To be Nb Subedar: Clerk (GD/SD)

Hav Narendra Prasad Singh, (6649784-Y Now JC-641382-F)—31 Mar 97*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 96 without effect on pay and allces.)

Hav Ganu Singh, (6649745-F Now JC-641383-K)—07 May 97**

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 96 without effect on pay and allces.)

Hav Harmeet Singh, (6649821-F Now JC-641384-M)—31 Mar 97.E

Hav Utpal Bhakhopathy, (6649824-P Now JC-641385-P)—02 Apr 97.L

Hav Ayodhya Prasad Dubey, (13804550-L Now JC-641386-X)—01 Mar 97.

Hav Bimal Biswas, (6649716-L Now JC-641387-A)—03 Apr 97.f

Hav Satya Narain, (6374241-Y Now JC-641388-H)—01 Apr 97.f

Hav Kukam Singh Saini, (6372228-W Now JC-641389-L)—01 Mar 97.

Hav Arbind Kumar Singh, (6372592-P Now JC-641390-A)—31 Mar 97.f

Hav Gadadhar Suneel, (6373365-F Now JC-641391-H)—15 Apr 97.f

E(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 97 without effect on pay and allces).

Hav Pradip Mitra, (6649715-H Now JC-641392-L)—01 Mar 97.

Hav Om Prakash, (6649737-F Now JC-641393-N)—01 Apr 97.

Hav Narinder Pal Singh Geharwar, (6649880-N Now JC-641394-W)—03 Apr 97.&

Hav Pratap Singh (6649933-F Now JC-641395-Y)—01 Apr 97.

Hav S. Chidambaram, (6375683-K Now JC-641396-F)—01 Apr 97.

Hav Giresh Chandran MK, (6376409-Y Now JC-641397-K)—01 Apr 97.

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 97 without effect on pay and allces)

Hav Amar Jit, (6376424-N Now JC-641398-M)—01 May 97.

Hav Jayaprakash Hegde K, (6376506-W Now JC-641399-P)—01 May 97.

Hav Baldev Singh, (6377051-X Now JC-641400-Y)—02 May 97.@

Hav Kulwant Singh Katoch, (6377112-K Now JC-641401-F)—01 May 97.

Hav Parashram Gurav, (6377579-P Now JC-641402-K)—01 May 97.

Hav Goverdhan Singh, (6377599-H Now JC-641403-M)—01 May 97.

Hav Kuldip Singh Chauhan, (6377750-H Now JC-641404-P)—15 May 97.@

Hav Raghbir Singh Lolotra, (6378109-W Now JC-641405-X)—05 May 97.@

Hav Hanu Bhan Mishra, (6378119-A Now JC-641406-A)—01 May 97.

Hav Krishna Kumar, (6377052-A Now JC-641407-H)—09 May 97.⊙

Hav Dan Singh Dhani, (13863207-W Now JC-641408-L)—09 May 97. @

Hav Jai Singh, (6375250M Now JC-641409-N)—01 May 97.

Hav Bimukund Chaturvedi, (6650069-H Now JC-641410-H)—01 May 97.

Hav Ram Niwas Singh, (6377165-H Now JC-641411-L)—01 May 97.

Hav Ranvir Singh, (6378072-A Now JC-641412-N)—01 May 97.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub waf 01 May 97 without effect on pay and allowances).

To be Subedar (Religious Teacher)

Nuib Subedar (P) Puran Chandra Joshi (JC-138178 P)—01 May 1997.

Nuib Subedar (P) Ghana Nand Raturi (JC-138179 X)—01 May 1997.

Nuib Subedar (P) Ram Bhuwan Prasad Mishra (JC-138180M)—01 May 1997.

PIONEER CORPS

To be Sub Maj (GD)

Sub (GD) Norang Lal (JC-174891 X)—01 Oct 1996.

Sub (GD) Dominic K M : (JC-178694 M)—01 Jan 1997.

Sub (GD) Ishwari Datt (JC-178697 A)—01 Jan 1997.

Sub (GD) Ramesh Lal (JC-178699 L)—01 Mar 1997.

Sub (GD) Upendra Kumar Jena (JC-178700P)—01 May 1997.

To be Sub (GD)

Nb Sub (GD) Goginder Kumar (JC-198865 P)—01 Oct 1996.

Nb Sub (GD) Ram Dhari (JC-198866 X)—01 Oct 1996.

Nb Sub (GD) Hoishar Singh (JC-198867 A)—01 Dec 1996.

Nb Sub (GD) Atal Behari Hazra (JC-198868H)—01 Dec 1996.

Nb Sub (GD) Amarendra Prasad Thakur (JC-198869 L)—01 Dec 1996.

Nb Sub (GD) Jahar Lal Jana (JC-198912 F)—01 Dec 1996.

Nb Sub (GD) Kamal Saikia (JC-198913 K)—01 Jan 1997.

Nb Sub (GD) Umesh K. Iita (JC-198914 M)—01 Jan 1997.

Nb Sub (GD) Kamleshwar Prasad Shukla (JC-198915 P)—01 Jan 1997.

Nb Sub (GD) Radneshyam Tiwari (JC-198916 X)—01 Feb 1997.

PRAKASH CHAND,
Under Secy.

No. 724, dated the 26th Aug 1997—The President is pleased to make the following promotions:—

(REGULAR ARMY)

Infantry

THE GRENADIERS

To be Subedar Major

Sub Fefa Lal Meena (JC-181772 K)—01st Aug 1996.

Sub Ibrahim (JC-157282 X)—01st Feb 1997.

Sub Barmha Nand (JC-151206 P)—01st Mar 1997.

Sub Khuman Singh (JC-127505 P)—01st Apr 1997.

Sub Mahnga Ram (JC-157280 M)—01st Apr 1997.

Sub Nijamuddin (JC-199199 F)—01st Apr 1997.

To be Subedar Major (Clerk)

Sub (Clerk) Kishor Kumar Sharma (JC-196179 H)—01st Mar 1997.

To be Subedar

Nb Sub Major Mal (JC-193671 H)—01st Aug 1996

Nb Sub Sandra Singh Rathore (JC-205486 K)—01st Jan 1997.

Nb Sub Nand Singh (JC-220131 W)—01st Feb 1997.

Nb Sub Dharm Singh (JC-199208 X)—01st Feb 1997.

Nb Sub Harsh Singh Shikawat (JC-218439 L)—Feb 1997.

Nb Sub Mangal Singh (JC-210968 H)—01st Mar 1997.

Nb Sub Datt Ram (JC-448006M)—01st Mar 1997.

Nb Sub Mangal Singh (JC-448354 N)—01st Mar 1997.

Nb Sub Ganpat Singh (JC-220145 W)—01st Mar 1997.

Nb Sub Jagbir Singh (JC-448073 X)—01st Mar 1997.

Nb Sub Krishan Singh Chhikara (JC-448081 W)—01st Apr, 1997.

Nb Sub Ram Dev Meena (JC-448117 K)—01st Apr, 1997.

Nb Sub Bhanwar Lal (JC-448178 F)—01st Apr, 1997.

Nb Sub Riehhpal Singh (JC-448001N)—01st Apr, 1997.

Nb Sub Ganga Singh (JC-205872 W)—01 Apr, 1997.

Nb Sub Madan Singh (JC-220704 P)—01 Apr 1997.

Nb Sub Bhanwar Ali (JC-448089 H)—01st Apr 1997.

Nb Sub Goma Ram (JC-220710 H)—01st Apr 1997.

Nb Sub Salamat Khan (JC-218434 M)—01st Jun 1997.

Nb Sub Ram Niwas (JC-192545 K)—01st Jun 1997.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Cik) Onkar Chand Sharma (JC-448020 Y)—01st Mar 1997.

Nb Sub (Cik) Lekh Ram Chandel (JC-448041 P)—01st Mar 1997.

Nb Sub (Cik) Baldev Singh Bhatia (JC-448057 A)—01st Apr 1997.

THE RAJ RIF.

To be Subs Sub

Sub Mahabir Prasad Thalor (JC-220928 P)—28 Jun 1996.

Sub Dhup Singh (JC-220929 X)—01 Oct 1996.

Sub Ram Kumar (JC-224390W)—01 Nov 1996.

Sub Uttam Singh (JC-201879 H)—01 Feb 1997.

Sub Baldev Singh (JC-468026F)—01 Feb 1997.

Sub Mool Chand (JC-468108 K)—01 Feb 1997.

Sub Rajpal Singh (JC-182978 N)—01 May 1997.

Sub Bhup Singh (JC-185728 X)—01 May 1997.

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Karnail Singh (JC-194605 M)—01st Apr 1997.

Nb Sub Jagir Singh (JC-208100 K)—01st Apr 1997.

Nb Sub Om Parkash (JC-498087 L)—01st Jul 1997.

To be Subedar Major

Sub Harbhajan Singh (JC-159203 W)—01st Jun 1997.

To be Subedar

Nb Sub Nirmal Singh (JC-208096 M)—01st Jun 1997.

THE SIKH LI

To be Sub Maj (Religious Teacher)

PA Sub Maj (RT) Pritam Singh (JC-61833A)—01 Jul 1997.

To be Sub Maj (GD)

Sub Raghbir Singh (JC-163660 F)—01 May 1997.

Sub Harbhajan Singh (JC-164572 X)—01 May 1997.

Sub Mohinder Singh (JC-168896 A)—01 Jun 1997.

To be Sub Maj (Clerk) (GD)

Sub (Cik) Rameshwar Datt Koslia (JC-196867 F)—01 Jun 97.

To be Sub (GD)

Nb Sub Salwinder Singh (JC-211132 L)—01 Feb 96.

Nb Sub Bara Singh (JC-216574A)—01 Mar 96.

Nb Sub Sardara Singh (JC-216568 M)—01 Jun 96.

Nb Sub Parkash Singh (JC-216576 L)—01 Sep 96.

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-216577 N)—01 Sep 96.

Nb Sub Gurmali Singh (JC-220989 W)—01 Dec 96.

Nb Sub Surinderpal Singh (JC-218286 M)—01 Mar 97.

Nb Sub Jarnail Singh (JC-220991 K)—01 Apr 97.

Nb Sub Balbir Singh (JC-212645 Y)—01 May 97.

Nb Sub Thakur Singh (JC-508106K)—01 Jul 97.

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Sukh Ram (JC-518026 A)—1st Mar 1997.

Nb Sub Partap Chand Dhitman (JC-518036K) 1st Mar 1997.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-518037 M)—1st Mar 1997.

Nb Sub Ghameru Ram (JC-518196 K)—1st Mar 1997.

Nb Sub Charan Dass (JC-518074 A) 1st May 1997.

Nb Sub Maggar Singh (JC-518061 H)—1st May 1997.

Nb Sub Sahib Singh (JC-518198 P)—1st May 1997.

Nb Sub Partap Chand (JC-518205 A)—1st May 1997.

Nb Sub Piar Chand Sharma (JC-518082 Y)—1st June 1997.

Nb Sub Jagdish Chand (JC-518062 L)—1st June 1997.

Nb Sub Dila Ram (JC-518063 N)—1st June 1997.

Nb Sub Rattan Chand (JC-518248 P)—1st June 1997.

Nb Sub Raghbir Singh Pathania (JC-518029 N) 1st June 1997.

Nb Sub Sawaran Singh Jasrotia (JC-518067 K) 1st June 1997.

Nb Sub Rajinder Singh Chauhan (JC-518068 M) 1st June 1997.

Nb Sub Milap Chand (JC-518206 H)—1st June 1997.

Nb Sub Birender Singh (JC-518267 F)—1st June 1997.

Nb Sub Ramesh Chand (JC-518207 L)—1st June 1997.

Nb Sub Jagdish Chand (JC-518069 P)—1st July 1997.

The Garhwal Rifles

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Ram Dayal Bahuguna (JC-118912 W)—1st Jan 1996.

To be Sub Maj

Sub Rajendar Singh Kunwar (JC-152563 X) —1st June 1996.

To be Sub

Nb Sub Madan Singh (JC-178612 Y)—1st Sep 1995.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Inder Dev Nautiyal (JC-138611 N)—1st May 1997.

THE KUMAON REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Daya Ram Yadav (JC-180789 L)—1st Feb. 1997.

Sub Mahender Singh Yadav (JC-169216 P) —1st Feb 1997.

Sub Sumer Singh (JC-171997 Y)—1st Feb 1997.

Sub Fate Singh (JC-169409 F)—1st Feb 1997.

To be Subedar

Nb Sub Partap Singh (JC-208167 H)—1st Oct 1996.

Nb Sub Bishamber (JC-538044 K)—1st Nov 1996.

Nb Sub Krishan Singh (JC-212694 F)—1st May 1997.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub Clik Hari Singh (JC-218316 Y)—1st Dec 1996.

Nb Sub Clik Jaivir Singh Yadav (JC-220757 N)—1st Dec 1996.

Nb Sub Clik Amar Singh Bora (JC-220758 W) 1st Jan 1997.

Nb Sub Clik Nanhe Lal (JC-224457 K)—1st Jan 1997.

Nb Sub Clik Basant Kumar Pant (JC-220759 Y)—1st Jan 1997.

Nb Sub Clik Charan Singh (JC-220760 N)—1st Feb 1997.

Nb Sub Clik Dan Singh (JC-220761 W)—1st Feb 1997.

Nb Sub Clik Laxman Ram (JC-220763 F)—1st Feb 1997.

Nb Sub Clik Chimma Ram Chaudhary (JC-224459 P)—1st Feb 1997.

Nb Sub Clik Devendra Prasad Pant (JC-538011 Y)—1st Feb 1997.

Nb Sub Clik Dharam Pal Singh Sangwan (JC-538014 M)—1st Mar 1997.

Nb Sub Clik Than Singh Suyal (JC-538012 F) —1st Mar 1997.

Nb Sub Clik Hira Singh Karki (JC-220762 Y) —1st Apr 1997.

Nb Sub Clik Moola Ram Verma (JC-538049 H) —1st Apr 1997.

Nb Sub Clik Surendra Singh Parihar (JC-538042 Y)—5th Apr 1997.

THE NAGA REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Darban Singh (JC-201103 P)— 01st Apr 1997.

To be Subedar

- Nb Sub Rameshwar (JC-204141 W)—1st June 1995.
- Nb Sub Ramotar (JC-206010 K)—1st Mar 1996.
- Nb Sub Shiotaj Singh (JC-212676 Y)—1st Mar 1996.
- Nb Sub Balbir Singh (JC-212677 F)—1st Mar 1996.
- Nb Sub Nem Singh (JC-212703 X)—1st Mar 7 1996.
- Nb Sub Balbir Singh (JC-212678 K)—1st Oct 1996.
- Nb Sub Munshi Ram Yadava (JC-212680 F)—1st Oct 1996.
- Nb Sub Chandgi Ram (JC-212681 K)—1st Nov 1996.
- Nb Sub Jaipal Singh Yadav (JC-219737 N)—1st Dec 1996.
- Nb Sub Ayodhya Prasad (JC-219738 W)—1st Jan 1997.
- Nb Sub Mahabir (JC-221026 M)—1st Feb 1997.
- Nb Sub Shtee Krishna (JC-221027 P)—11th Mar 1997.
- Nb Sub Raja Ram Yadav (JC-221037 Y)—1st Apr 1997.
- Nb Sub Narain Datt Bhatt (JC-538091 F)—1st Feb 1997.
- Nb Sub Sukhbir Singh (JC-219749 H)—1st Apr 1997.
- Nb Sub Nihal Singh (JC-219750 X)—1st June 1997.

The Bihar Regiment

To be Subedar

- Naib Subedar Jagarnath Singh (JC-204170 L)—1st March 1996.
- Naib Subedar Hardawar Singh (JC-205251 X)—1st April 1997.
- Naib Subedar Shri Krishna Singh (JC-212728 K)—1st April 1997.
- Naib Subedar Bishun Singh Yadav (JC-216639 H)—1st June 1997.
- Naib Subedar Silas Topno (JC-212951 N)—1st June 1997.
- Naib Subedar Halan Barjo (JC-173251 F)—1st September 1995.
- Naib Subedar Kundia Samad (JC-173253 M)—1st June 1996.

Naib Subedar Pramod Kumar Singh Ghayal (JC-212971 F)—1st August 1996.

Naib Subedar Birsa Aind (JC-188549 H)—1st August 1996.

Naib Subedar Kameshwar Paswan (JC-220237 H)—1st September 1996.

Naib Subedar William Minj (JC-188550 X)—1st September 1996.

Naib Subedar Regius Kujur (JC-188551 A)—1st September 1996.

Naib Subedar Sukdeo Ram (JC-220238 L)—1st September 1996.

Naib Subedar Siree Bhagwan Singh (JC-558087 A)—1st October 1996.

Naib Subedar Satrohan Singh (JC-558089 A)—1st November 1996.

Naib Subedar Nawal Kishore Singh (JC-558090 A)—1st November 1996.

Naib Subedar Lokanath Naik (JC-218041 W)—1st November 1996.

Naib Subedar Dhaneshwar Yadav (JC-218341 X)—1st November 1996.

To be Subedar (RT)

Naib Subedar Rajender Jha (JC-138612 M)—01 May 1997.

Naib Subedar Narayan Jha (JC-138613 Y)—01 May 1997.

The Mahar Regiment

To be Substantive Subedar Major (Religious Teacher)

Sub RT (Pandit) Badri Prasad Purohit (JC-62228 Y)—01 Jul 1997.

Sub RT (Pandit) Bachaspati Sharma (JC-54890 Y)—01 Jul 1997.

JAK RIF

To be Subedar Major (Religious Teacher)

Sub (Pandit) Diwan Chand Sharma (JC-59883 M)—JAK RIF—1st Apr 97.

To be Subedar Major (GD)

Sub Gopi Chandra Adhikari (JC-152201 H)—JAK RIF—01 Dec 96.

Sub Ranjit Singh Jasrotia (JC-155496 P), JAK RIF—01 Dec 96.

Sub Balraj Singh (JC-168611 H), JAK RIF—01 Dec 96.

Sub Nagpal (JC-179459 A), JAK RIF—01 Jan 97.

Sub Sita Ram Malik (JC-172604 K), JAK RIF—01 Jan. 97.

Sub Moon Singh (JC-192695 A), JAK RIF—
01 Jan 97.

Sub Braham Dass Thakur (JC-212980 H), JAK
RIF—01 Mar 97.

To be Subedar (GD)

Nb Sub Bishnu Prasad Jaisi (JC-196612 F)—
JAK RIF—01 Dec 96.

Nb Sub Jagdish Chand (JC-220286L), JAK RIF
—01 Dec 1996.

Nb Sub Hem Raj (JC-578032 X), JAK RIF—
01 Dec 96.

Nb Sub Gurmej Singh (JC-211334 Y)—JAK RIF
—01 Dec 96.

Nb Sub Muzzafar Khan (JC-193883 A), JAK
RIF—01 Dec 96.

Nb Sub Amrita Ram (JC-213003W), JAK RIF
—01 Dec 96.

Nb Sub Niran Singh Chauhan (JC-222802N),
JAK RIF—01 Dec 96.

Nb Sub Swaroop Lal (JC-220301 P), JAK RIF
—01 Dec 96.

Nb Sub Lal Singh (JC-213002 N), JAK RIF—
01 Jan 97.

Nb Sub Ramesh Chander (JC-205708 N), JAK
RIF—01 Jan 97.

Nb Sub Kapur Singh (JC-211323M), JAK RIF
—01 Jan 97.

Nb Sub Narayan Bahadur Karki (JC-578174P),
JAK RIF—01 Jan 97.

Nb Sub Parkash Chand (JC-218365 F), JAK
RIF—01 Jan 97.

Nb Sub Hakam Chand Chandal (JC-578146 H)
JAK RIF—01 Jan 97.

Nb Sub Gurdial Singh (JC-220707 P), JAK RIF
—01 Feb 97.

Nb Sub Vijay Kumar (JC-213010N), JAK RIF
—01 Feb 97.

Nb Sub Lachman Singh (JC-211337 M), JAK
RIF—01 Feb 97.

Nb Sub Balbir Singh (JC-211338 H), JAK RIF
—01 Feb 97.

Nb Sub Bua Ditta (JC-578069 Y), JAK RIF—
01 Feb 97.

Nb Sub Vir Singh (JC-224481 A), JAK RIF—
01 Feb 97.

Nb Sub Vidya Sagar (JC-578065 H), JAK RIF
—01 Feb 97.

Nb Sub Satpal Singh (JC-578105 Y), JAK RIF
—01 Mar 97.

Nb Sub Devi Chand (JC-220809 Y), JAK RIF
—01 Mar 97.

Nb Sub Man Raj (JC-222795 Y), JAK RIF—
01 Mar 97.

Nb Sub Sham Singh (JC-220793 Y), JAK RIF—
01 Mar 97.

JAK LI

To be Subedar

Nb Sub Punjab Singh (JC-203852 K)—01
Jun 97.

Nb Sub Sarwan Singh (JC-205726 W)—01 Jun
97.

Nb Sub Bachan Lal (JC-221057 M)—01 Jan
97.

Nb Sub Kapoor Singh (JC-221058 K)—13
Jan 97.

Nb Sub Dina Nath (JC-592012 P)—18 Feb
97.

Nb Sub Ram Singh (JC-592027 Y)—01 Apr
97.

Nb Sub Joginder Singh (JC-592076 A)—01 Apr
97.

11 GR

To be Subedar Major

Sub Shyam Kumar Rai (JC-152244 X)—01
Dec 96.

Sub Jagir Man Rai (JC-155974 A)—01 May
97.

To be Subedar

Nb Sub Lahang Subba (JC-208220 H)—01 Dec
96.

Nb Sub Deo Bahadur Rai (JC-208221 L)—01
Dec 96.

Nb Sub Bishan Bahadur Thapa (JC-211385M)
—01 Feb 97.

1 GR

To be Sub

Nb Sub Naresh Rana (JC-206027 X)—1st Jun
1997.

Nb Sub Gaj Bahadur Gurung (JC-206028 A)—
1st Jun 1997.

Nb Sub Ek Bahadur Rana (JC-199364 F)—
1st Jun 1997.

3 GR

To be Subedar

Nb Sub Trilok Singh Thapa (JC-203864 Y)—
01st Feb 1997.

Nb Sub Ganga Bahadur Ale (JC-203865 F)—
01st Mar 1997.

Nb Sub Tanka Bahadur Magar (JC-220338W)
—01st July 1997.

8 GR

To be Sub

Nb Sub Durga Prasad Amgai (JC-205397 L)
—1st Nov 1996.

Nb Sub Padam Bhadur Thapa (JC-205328M)
—1st Dec 1996.

Nb Sub Jagat Bahadur Ale (JC-205829 P)—
1st Jan 1997.

Nb Sub Ruk Bahadur Singjapati (JC-212796
X)—1st Jan 1997.

Nb Sub Kehar Sing Dhenga (JC-212797 A)—
1st Feb 1997.

T.C. JAIN
Under Sec.

No. 725, dated 4th Aug 97—The President is
pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

1031 HQ RAILWAY ENGINEER REGIMENT
(TERRITORIAL ARMY)

To be Najb Subedar

Hav Barm Chand (No. 12229413, Now TJ-4318)
—15 Apr 97.

Hav Bhupendra Singh (No. 12189330, Now TJ-
4319)—15 Apr 97.

Hav KL Gosar (No. 12207979, Now TJ-420)—
15 Apr 97.

123 INFANTRY BATTALION (TA)

To be Nb Sub

Hav Surinder Singh (No. 10302015, Now
TJ-4321)—15st Apr 97.

Hav Narayan Ram (No. 10302043 Now TJ-4322)
—15 Apr 97.

Hav Mool Singh (No. 10302082, Now
TJ-4323)—15 Apr 97.

119 INFANTRY BATTALION (TA) ASSAM

To be Nb Sub

Hav S Mohindra Singh (No. 10244309 Now
TJ-4328)—01 May 97.

124 INF BN (TA) SIKH

To be Nb Subedar

Hav Jangli Prasad (10314085 H Now TJ-4330)
—01 Apr 97.

1103 RLY ENGR REGT (TA)

To be Naib Subedar

HAV Surendra Prasad Mathur (No. 12311921
now TJ-4315)—30 Mar 96.

B. N. SINGH, Under Secy.

No. 726, dated 21st Aug 1997.—The President is
pleased to make the following promotion in the
Executive Branch of Indian Navy under Regu-
lation 121 of Regs Navy Part III Statutory :—

NAVY BRANCH

(Permanent Commission)

Sub Lt. to be Lieutenant

Sl. No.	Name/P.No.	Date of Promotion to Lt/ Seniority from
1	2	3
1.	Vinit Batra (03986-H)	16-5-97/ 16-5-96
2.	Manish Rao (04150-F)	01-10-96
3.	Ajay Yadav (04179-Y)	01-12-96
4.	H Avtar (04147-Z)	16-10-96
5.	V. Sekhar (04184-H)	01-04-96
6.	Rajat Nagpal (04225-A)	16-8-96
7.	Manish Dhakray (04264-R)	16-9-96
8.	A Khanna (04218-K)	16-10-96
9.	M. Somasekhar (042211-W)	01-5-97
10.	S S Sarna (04235-Z)	16-1-97
11.	Atul Nanda (04261-H)	01-9-96
12.	Mridul Shah (04222-W)	16-7-97/ 16-4-97
13.	S. Purushotham (04237-B)	16-5-97
14.	Anil Kumar (04316-H)	16-2-97
15.	S Ramnathan (04358-B)	16-3-97
16.	Ama preet Singh (04333-Y)	16-3-97
17.	R. K Rastogi (04369-B)	01-4-97
18.	A K Tomer (04366-Y)	16-4-97
19.	M. K. Jha (04351-N)	16-4-97
20.	Randhir Singh (04367-Z)	16-4-97 16-10-96

1	2	3
21.	Ajay Yadav (04370-F)	16-4-97
22.	A Gurubuxani (04359-F)	01-5-97
23.	JS Ghuman (04368-A)	01-5-97
24.	R Ganpule (04354-W)	16-5-97
25.	A Srivastava (04372-K)	16-5-97
26.	V. K. Dagar (04349-H)	01-6-97
27.	V. B. Nalte (04350-K)	01-6-97
28.	Y. P. Sharma (04330-R)	01-7-97
29.	R. Kannanunni (04357-A)	16-5-97

The President is pleased to make the following promotions in the Executive Branch of the Indian Navy under the Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory :—

NAVY BRANCH

(Permanent Commission)

AG Sit to be Sub Lieutenant

S. No.	Name/P. No.	Date of promotion /Seniority from
1.	I. K. Sinha (04105-B)	19-11-95/ 01-7-93
2.	D. S. Sihag (04173-H)	22-12-96/ 1-1-94
3.	A A Wadikar (04247-A)	17-3-96/01-7-94
4.	Atul Nanda (04261-H)	26-11-96/01-7-94
5.	A. K Pandey (04213-Z)	21-7-96/01-7-94
6.	S S Anpat (04233-W)	16-3-97/01-7-94
7.	K S Balaji (04321-W)	09-3-97/01-1-95
8.	Sundhir Dixit (04336-B)	9-3-97/01-1-95
9.	C. D Kale (14437-H)	16-3-97/01-7-95
10.	H J Singh (0442-W)	Do.
11.	Prashant Handu (04454-Y)	Do.
12.	S H Azad (04394-K)	Do.
13.	V Ranganathan (04396-R)	Do.
14.	K H V Singh (04447-F)	Do.
15.	H Bahuguna (04411-Z)	Do.
16.	Dhiraj Khanna (04434-A)	Do.
17.	S V Shinde (04427-K)	Do.
18.	Amit Puri (04441-T)	Do.
19.	A S Kumar (04450-N)	Do.
20.	A K Abraham (04417-N)	Do.
21.	H Chaturvedi (04388-Y)	Do.
22.	S Sectaram (04439-N)	Do.
23.	Samir Choudhary (04392-F)	Do.
24.	J Srivastava (04424-B)	Do.
25.	Sridhar Kumar (04422-Z)	Do.

S. No.	Name/P. No.	Date of Promotion/Seniority from
26.	Happy Mohan (04415-H)	16-3-97/01-7-95
27.	H Salunkhe (04404-H)	Do.
28.	S Poornanand (04453-W)	Do.
29.	A Roy (04408-T)	Do.
30.	Kaushik Hota (04413-B)	Do.
31.	K. Nanda (04414-F)	Do.
32.	Birra Kishore (04429-R)	Do.
33.	DS Suhag (04386-T)	Do.
34.	N Madhavan (04423-A)	Do.
35.	V Ramraj (04455-Z)	Do.
36.	D Poddar (04449-K)	Do.
37.	CP Roshan (04430-T)	Do.
38.	S. Gopinath (04391-B)	Do.
39.	V Jairath (04402-B)	Do.
40.	Richie Rajan (04435-B)	Do.
41.	AS Siso (04382-H)	Do.
42.	KPS M (04403-F)	Do.
43.	V Tripathi (04406-N)	Do.
44.	KC Prashant (04476-H)	Do.
45.	VK Dahiya (04385-R)	Do.
46.	Sat Pal Singh (04395-N)	Do.
47.	A Narayanan (04397-T)	Do.
48.	Sanjay Kader (04425-F)	Do.
49.	Harneet Singh (04448-H)	Do.
50.	SG Lamba (04381-F)	Do.
51.	Sharad Parti (04401-A)	Do.
52.	Ashish Nagar (04390-A)	Do.
53.	MD Joshi (04444-Z)	Do.
54.	S Ravi Kumar (04431-W)	Do.
55.	Hemant Kumar (04418-R)	Do.
56.	A Parasnis (04428-N)	Do.
57.	A Devadatt (04405-K)	Do.
58.	OP Singh (04409-W)	Do.
59.	Balbir Singh (04384-N)	16-4-97/01-7-95

ARSHAD KAMAL

Senior Civilian Staff Officer
Deputy Director of Pers (JOA&R)

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

Defence Aeronautical Quality Assurance Service

No. 727, dated 26 August 1997—Shri N.P. Narayan, D.C S.O. Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, voluntarily retire from service with effect from 21-8-97 (FN).

J.P. DUTT
Desk Officer

ARMY BRANCH

No. 728, dated 14 August, 1997—The President is pleased to retire the undermentioned Officer(s) on attaining the age of superannuation :—

Regular Army

Permanent Commission

Maj Gen. B P Singh (MR-1500), AMC/PC—
30-6-96 (AN).

Maj Gen D P Banerjee (MR-1954), AMC/PC—
30-6-96 (AN).

Maj Gen G S Octania (MR-1890), AMC/PC—
30-06-96 (AN).

Maj Gen P Sathyapalan (MR-1805), AMC/PC—
30-06-96 (AN).

Lt Col (Mrs.) S. Pasi (MR-3794), AMC/PC—
31-07-96 (AN).

Lt Col OP Sharma (MR-2445), AMC/PC—
31-3-97 (AN).

Lt Col SS Rawat (NTR-16349), AMC/PC—
—30-6-96 (AN).

Lt Col C R Naidu (NTR-16305), AMM/PC—
31-3-97 (AN).

J. C. SHARMA
Surg RADM
Addl DGAFMS

	2	3	4
5. WS00072 D Das, Engrs		5-3-96	494/96 dated 10-8-96
6. WS00083 SK Nair, EME		20-8-96	728/96 dated 9-11-96
7. WS00085 A Kansra, Engrs		20-8-96	728/96 dated 9-11-96
8. WS00089 P Singh, EME		20-8-96	728/96 dated 9-11-96
9. WS00091 R Sankaran, EME		20-8-96	728/96 dated 9-11-96
10. WS00092 BM Eappen, Engrs		20-8-96	728/96 dated 9-11-96
11. WS00093 S Bhatta- charjee, Sigs		20-8-96	728/96 dated 9-11-96.
12. WS00098 VJ Tergundi, Sigs		20-8-96	728/96 dated 9-11-96

Corrigendum

No. 729, dated 20 August 1997—Consequent on grant of ante-date seniority and subsequent promotion to the rank of Subs Lt. the name of following officers be deleted from the following Gazette Notification Nos published under the heading "Regular Army, Short Service Commission, sub-heading 2/Lt to be Lt" —

Sl. No.	Pers No. Name & Arm	Date of promotion as Subs Lt	Gazette No & Date of publication
1	2	3	4
1.	WS 00053 MP Avinash Rao, EME	5-3-96	494/96 dated 10-8-96
2.	WS00058 Manju Arora, Engrs	5-3-96	494/96 dated 10-8-96
3.	WS00060 A Moolri, EME	5-3-96	494/96 dated 10-8-96
4.	WS00070 A Gupta, Engrs	5-3-96	494/96 dated 10-8-96

S D RAI
CSO
DAMS 8C

No. 730, dated 20 Aug 1997—In Ministry of Defence Notification No. 871 dated 21 Nov 1996, published in the Gazette of India No. 52 dated 26 Dec 1996, under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'ARMY SERVICE CORPS (Mechanical Transport)', below 'To be Nb Subs' :—

After Hav Rukam Din

For (No. 13853139 A now JC-60736 N)—22 Apr 1996.

Read (No. 13853139 A now JC-650736 N)—
22 Apr 1996.

After Hav Bhim Singh

For (No. 13800522 Y now JC-660765H)—
01 Feb 1996.

Read (No. 13800522 Y now JC-660765 H)—
01 Feb 1996.

PRAKASH CHAND
Under Sec.